



ॐ नमःसिद्धम्  
श्री  
चमत्कारि-सावचूरि स्तोत्र सग्रह.  
तथा  
वकत्रलियासूत्र-सारांशः

संपादक अरु भशाशय,  
मुनिश्री क्षान्तिविजयजी महाराजजी

उपाधी प्रसिद्ध वरगार  
शाह हीराचंद ककलजाड  
मनेजर जेपाठशाला फतामानी पोल्-अमटावाड.

आषिक सहायदाता  
मुनिश्री क्षान्तिविजयजी महाराजजीना मदुपदेशपी व  
ळठाणा जिळाना गाम लुणार निवासी जेनभेताभ्यर  
मूर्तिपूजक स'र तफपी शेठ इमराजजी मचती.

पिपम वचन १०७९  
प्रथमयाग

श्रीर सचन १०२०  
प्रथम १००

---

આ પુસ્તકની દજાર ( ૧૦૦૦ ) નફલ છવાસી, ૫૦૦ નફલા  
સતીમડલનામના પુસ્તકમા તેના માલીફની મટ્ટ મળવાથી તેમાં  
દામ્વડ ફરી છે અને ૫૦૦ નફલા જુગી પ્રમિદ્દ ફરી છે

---

ધી યુનિયન પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ & પાપી લીમીટેડ, કાલપુર ટંકુશાલ  
અમરાવાટમા ગા મોદનલાલ ચમનરાઠ છાપ્ય

---

## ॥ सूचीपत्र ॥

नं	ग्रथनु नाम,	कर्तानु नाम	पृष्ठांकनुं.
१	एकादश सधाना स्तुतिः अवचूरि सहिता	विजयदान सूरेश्वर शिष्यः	१ पी ८
२	षट् सधाना स्तुतिः अवचूरि सहिता	”	८ पी ११
३	विद्वद्गोष्ठी	मात्तन विद्वान्	१२ पी १४
४	नरवृत्ताष्टकम्	”	१४ - १५
५	वानरवृत्ताष्टकम्	”	१५ - १६
६	सत्पुरुषाष्टकम्	”	१७ - १८
७	सज्जनचित्तवृत्तभ्रंशः भाषान्तर सहितः	मल्लियेण मुनीन्द्रः	१९ पी ३०
८	श्री अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ महात्म्य गर्भित ५० भावविजय गणि विरचित स्व चरित्रम्		३१ पी ४५
९	” हिंदिभाषान्तर मुनीश्री क्षान्तिविजयजी		४६ पी ६३
१०	श्री वंकचूलियासूत्र साराशः सुजराति भाषामा	ले०- ”	६४ पी ७२
११	शुद्धि पत्रक	”	७६ पी



१  
॥ अर्पणपत्रिका ॥

शान्त्याग्रनेरु गुणगणालकृत परम पूज्य मातःस्मरणीय परम  
गुरु स्वर्गस्थ पन्यासजी महाराज श्री श्री श्री उमेदविजयजी ग-  
णीश्वरजी महाराजजी तथा

उपरोक्त विशेषण त्रिशिष्ट विहरमान जैनाचार्य श्री श्री श्री  
विजयधीर सूरेश्वरजी महाराजजी,

आपश्रीनी पूर्ण कृपाधी मारामां अनेक गुणो उद्भज्या, सम्यक्  
दर्शन ज्ञान तथा चारित्रनु भाजन वन्यो अने भगवनी जेवा गहन  
सूत्रोने वाचवा समर्थ ययो, वली लुणार नामना मापमा कृपधीने  
हठावत्रामा समर्थ ययो, ते पण आप महात्माश्रीनी पूर्ण कृपानुज  
फल छे इत्यादि अनेक गुणोधी मेराइ आ लघु पुस्तक आपश्रीना  
करकमलमां अर्पण करवु ते कृपया स्वीकारो कृतार्थ करशो एवी  
आशा रासुवु.

खी. कृपाकाक्षी क्षान्तिविजय.



## ॥ किञ्चिद्वक्तव्य ॥

मारो संस्कृत विषयक अभ्यास चालतो हतो ते अवसर, परमपूज्य गुरुवर्य तरफची, स्तुतिओ ( स्तोत्रो. ) मुग्वपाठ करवा माटे, आ पुस्तकमा प्रसिद्ध थयेल. नवर. १ धो ७ घुशीना स्तोत्रोना पानानो एकेक नकल, मने प्रसन्नता पूर्वक वक्षीस यइ हती, ते स्तोत्रोनो भागार्थ न समजी शक्याथी केटलोक वखत पोथीमा धांधी सायेज फेरव्यां. केटलोक समय गया बाद साधारण अभ्यास यवायो म्नुतिओनो भागार्थ काइक समजया लाग्यो, तेथी तेना उपर विशेष प्रीति यइ अने तेथीज तेने वे चार वरत याचो, अ शुद्धिने पु. यनुसार घुधारी, प्रेस कोपी करी राखी. प्रेस कोपी पण घणो वखत पासो रहो अनुक्रमे घर्म श्रद्धालु शाह हीराचद ककलभाइनो समागम यवायो कोइ पुस्तकमा दाखल करवा साह प्रेस कोपी तेमने स्वाधीन करी हती अवसर आपवायो ते ग्रयो तेमणे उपायया शक्य कर्या अने मने खबर आपी ते वखते में अन्तरिक्ष पार्श्वनायनी यात्रा करी त्यानी हकीकतयाउ एक ( ८ घु. ) स्तोत्र मेलघ्यु हतु, तेने घुधारी तेनी प्रेस कोपी करी ते पण तेपने मोकली दीघु. वली घीजी वखत यात्रा करवा जघुपयु, ते वखते तेज स्तोत्रनो संस्कृत भाषायी अज्ञ लोकोने पण लाभ मने तथा वराह खानदेश विंगरेमा वस्ता जैनो गुजराति भाषायी अज्ञाण होवायी तेमने पण लाभ मने तेवा इंतुधी तेनु हिदि भाषायां भाषा तर राखीने ( ९ मा स्तोत्र तरीत ) हिराचदभाइ उपर मोकली आप्यु



जो कें हिंदी भाषानो अनभ्याम होवायी अने मातृभाषा गुजराति होवायी हिंदिमा लखनु ते हास्यास्पद यशे एम जाणवा छत्रा पण उपरोक्त देशना लोकोने तेरी भाषा पण समजाशे एवी अनुभव सिद्ध खात्री यशधी, तेरी भाषा लखवामा पण उत्साह यशो तो ते भाषाज्ञ पुस्तोए लेखननो भाषाना दोष तग्फ दृष्टि न करता दोषोने दूर करी गुण ग्राही बनवा विनति करवामा आवे छे, तथा अतारक्ष पार्श्वनाथजीनी बीजीरारनो यात्रा करी लुणार गाममा चोमासु थयु त्या हुढक साधु साथे विनाइ थयो. कुपयनु खंडन कर्तुं परिणाममा (१५०) दोढसो भाइयो महेनोए हुढक पय छोडी हुढक पय धुचक तोवरो (गृहपति) तोडी मिथ्या पडल फोडी सम्यक्त्व साथे मीति जोडी. सुद्ध देववीतरागनो मूर्तिने पूजता यया अने सवेगी गुरुने मानता यया, तथा हौंदु धर्मना महान गुरु कोलापुरना रहोश श्रीमद् शरुतार्यजीनी मभाषा. उपरोक्त हुढक मुनि पोताना धर्मनो माचोनताने सिद्ध न करी शकवायी पलायन करी गया, तेथो मदीर मार्गी लोकोने हुढक मतनी उत्पत्ति जाणवानी इच्छा थइ अने घणो भाग्रह करवायी हुढक मतनी हकीकतने मगट करनार वकचूलीया सूत्रनो दुकमा साराश गुजराति भाषामां लखी, श्रेष्ठी वर्य श्री हीराचरभाइ उपर (१० मा ग्रंथ तरीके मोकली आप्यो, आ ग्रंथ छपाय्या दरम्यान मागे विहार घालु होवायी सर्वे फरमाओ सुधार्या मोकळाइ शक्याया नही तेथी केटलेक स्थले विशेष अशुद्धि रही, माटे शुद्धि पत्र करवुं पडयु छे तेथो शुद्धि पत्र जोइ सुधारी वाचवा तस्दी लेशो तो महेनतः सफल

યશે, ઘલી શુદ્ધિ પત્રક કરવા છતાં પણ દષ્ટિ ટોપને લ્હને ફાંઈ અશુદ્ધિ રહી હોય તેને સજ્જન પુરુષો મુધારી ઘાચશે અને લક્ષી જળાવશે તો પુનરાટ્ટતિમા તેનો મુચારો કરવા મૂચનાનો ઉપયોગ યશે. ઈ રીતે આ પુસ્તકમા નાના નાના દશ ગ્રયો મસિદ્ધ ધરા પામ્યા છે. આ પુસ્તકને છપાવવામા ઉપરોક્ત શ્રેષ્ઠીર્ય શ્રી હોરાચંદ્રભાઈયે ઘણીજ મહનલ લીધી છે તેથી આ સ્થલે તેમનો ઘન્યગાટ આપવો યોગ્ય છે, તેનો સાયે આવા ઉત્તમોત્તમ કાર્યો કરવામાજ તેમને પો-તાની સપૂર્ણ જીંદગી અર્પણ કરી કે તે જાણી કયો પુરુષ તેમને ઘાયવાદ આપ્યા ઘીવાય રહેશે ઈતિશ્ચમ્. ૐ શાન્તિઃ ૩

ક્ષી. પંન્યાસ પદાલંકૃત શ્રીમાન્ ઝમેદત્રિજયજી  
ગણીશ્વર ચરણોપાસક મુનિ ક્ષાન્તિત્રિજય





# एकादश सधानां स्तुति ।



मणम्य श्रीजिनेशाना पदपंक्तयामलम् ।

सर्वेषा विद्यमानाना, भूताना भाविना तथा ॥ १ ॥

खंडेरखंडैर्यमकैरनेकै , पदैर्मयैकादशना क्रियेत ।

एकस्तुतेरप्यवधार्य सम्यग्, व्याख्यानमाख्या स्वगुरोः

स्यचित्ते ॥ २ ॥

तद्यथा-

श्रीनाभिनन्दन-जनेषु कुरुष्य शाते-नेमेगुणपत्रपार्श्वगर्द्धमान' ।

शान्ति सतामभयदाकरतागमार्ह-ग्रक्षप्रभो विजयदानगुरोः ममत्तः॥१॥

इति श्रीआदिनाथ १ श्रीअभिनन्दन २ श्रीशान्तिजिन ३ श्रीनेमिनाथ ४ श्रीपार्श्वनाथ ५ श्रीमहावीर ६ श्रीसाधारण ७ जिनाना स्तुति. तथा श्री५ विजयदानमूर्तीद्राणा स्तुतिः सपूर्णा ।

व्याख्या-हे श्रीनाभिनन्दन ! नाभेर्नन्दनो नाभिनन्दनः, त्रियाचतुस्त्रिंशदतिशयसमृद्धिरूपया ज्ञानसंपदूपया वा, उपलक्षित' नाभिनन्दन. श्रीनाभिनन्दनः तस्य मयोधनम्, ह श्रीनाभिनन्दन ! हे श्री आदिनाथ ! जनेषु सताम-शान्तिम्-क्षुद्रोपद्रवनाशरूपाम् । त्व कुरुष्व-निष्पादय इत्यन्वय , शान्ति किं विशिष्टाम् ? सर्वा-सह तथा लक्ष्म्या वर्त्तते या सा सता ता सता लक्ष्मीसहिता शान्तिं कुरुष्वन्यर्थः । ह शाते ! शात्यात्मकत्वात् तत्कृतृत्वाच्चेति शान्ति. तस्य मयोधनम् । ह नेमे ! न विग्रहे नेमि' शस्त्ररूप चक्र यस्या-

जनेषु-लोकेषु, सता-लक्ष्मीसहिता शान्तिं कुरुष्व, त्वं किं विशिष्टः ? गुणप्रवरपार्श्वगवर्द्धमानः गुणैः प्रवरः पार्श्वगाः शिष्यविशेषास्तैर्वर्द्धमानः शेष सर्वं श्रीवृषभजिनपक्षवदिति द्वितीयस्तुत्यर्थः ॥ २ ॥

अथ यदि मौल विम्ब श्रीशान्तिजिनस्यास्ति तदा तमेव जिनस्वीकृत्य इयं स्तुतिः पूर्वं वक्तव्या तदा चायमर्थः प्रकटीक्रियते हे शान्ते ! सता लक्ष्मीकलिता शान्तिं कुरुष्व केषु ? श्रीनाभिनन्दनजनेषु श्रिया इनाः, अभिनन्दयन्तीत्यभिनन्दनाः, श्रीनाथ अभिनन्दनाथ श्रीनाभिनन्दना. श्रीनाभिनन्दनाथ श्रीनाभिनन्दनजनास्तेषु । अथवा जनेषु इति पृथक्पदं ह श्रीन ! श्रीपते ! हे अभिनन्दन ! अभिनन्दयतात्यभिनन्दनस्तस्य संबोधनम्, हे हर्षकर ! केषां ? सतामितिपदं षष्ठीबहुवचनान्तम् योजयितव्यम्, अन्यच्छेषं श्रीयुगादिजिनपक्षवदिति तृतीयस्तुत्यर्थः ॥ ३ ॥

यदा मूलनायकः श्रीनेमिजिनस्तत्र तमगीकृत्याप्येषा एवोच्चार्या तत्र चार्थ एव स च यथा हे नेमे ! सता शान्तिं कुरुष्व, केषु ? श्रीनाभिनन्दनजनेषु, त्वं किं विशिष्टः ? गुणप्रवरपार्श्वगवर्द्धमान इति श्रीशान्तिपक्षवदिति चतुर्थस्तुत्यर्थः ॥४॥

यदा कुत्रचित् मूलनायकः श्रीपार्श्वनाथस्तदा इयमेव तमुररीकृत्यं पूर्वं वाच्या, तत्र च व्याख्यानविधिरस्य तथाहि-हे पार्श्व ! सता लक्ष्मी सहिता शान्तिं कुरुष्व, केषु ? श्रीनाभिनन्दनजनेषु, इति पदं श्री शान्तिजिन पक्षवत्, हे शान्त ! हे अनेमे ! हे गुणप्रवर ! गुणैः प्रवरः गुणप्रवरस्तस्य संबोधनम् । त्वं किं विशिष्टः ?

गवर्द्धमानः गोर्वाणी तथा ऋद्धो-वृद्धि माप्नो, मान-पूजाविशेषो,  
 यस्य स तया ऋद्धौ वृद्धौ क्तप्रत्यये ऋद्ध इति गोशब्दस्य ऋद्ध  
 इति, परे “ स्वरे वानसे ” इति सूत्रेणाव इत्यादेशे कृते सति  
 “ अवर्णस्येवर्णादिनैदोदरल ” ( सि० १।२।६। ) इति सूत्रे  
 णार् गवर्द्ध इति सिद्ध । अथवा हे गवर्द्ध ! गवा “ सस्फारवच-  
 मांदास्यम् ” ( अभि० प्र० का० श्लो० ६५ ) इत्यादि पंचत्रिंश-  
 द्वागुण सधुक्तया वाण्या ऋद्ध आद्यो गवर्द्धस्तस्य संशोधनम् ।  
 यद्वा हे ऋद्ध ! हे आद्य ! कया ? गवा-पूर्वोक्तरूपया वाण्या, त्वं  
 किं विशिष्टः ? मानः-मा-लक्ष्मीं नयति-प्रापयति इति मान , के-  
 पा ? सतामित्यत्रापियोज्यम्, शेष सर्वं श्रीरूपभषवदिति पच-  
 मस्तुत्यर्थे ॥ ५ ॥

अथ यदि मूलनायक श्रीमहागौरस्तदाप्येषा एव तद्गुरुरीकृत्य  
 पूर्वं वक्तव्या तत्र चेत्यमर्थे प्रथनीयः स च यथा-हे वर्द्धमान !  
 सता-लक्ष्मी समन्वितां शान्तिं कुरुष्व, केषु ? श्री नाभिनन्दनज-  
 नेष्विति श्री शान्तिजिनपञ्चद्व व्याख्येयम् । हे शान्ते ! हे अनेमे !  
 हे गुणप्रवरपाम्बग ! गुणै प्रवराः पार्श्वगाः श्रीगीतमादयो विनेय-  
 विशेषा यम्य स तथा तस्य संशोधनम् । शेषं सर्वं श्रीरूपभषव-  
 दिति षष्ठमस्तुत्यर्थे ॥ ६ ॥

नन्वेतद्व्यतिरिक्तेषु मूलनायकेषु सत्सु कथं तत्संघिनी स्तुति-  
 भवति ? उच्यते तदा विवक्षामाधान्यादग्रम् एकं कचिज्जिनमधिकृत्य  
 पूर्वं पठनीया, तत्र चैवमर्थो व्याक्रियते तद्यथा-हे अभयद ! हे जिन !  
 त्वं सतां-लक्ष्मी सधुता शान्तिं कुरुष्व, केषु ? श्रीनाभिनन्दनज-

नेषु, त्व किं रिशिष्टः ? गुणमवरपाश्वंगरद्वेमान इत्येतच्छ्रीशान्ति  
जिनपक्षप्रदित्यसंपत् । आशरतागम ! आकगत्त पूर्वोक्तात्, ताया-  
लक्ष्या, आगमो यस्य स तथा तस्य संयोधनम् । यथा ह अत्र  
तागमेति पूर्ववद् व्याख्ययं शेषम-यत्सर्वं श्रीयुगादि जिनपक्षप्रदिति  
मत्तमस्तुत्यर्थः ॥ ७ ॥

अथ समस्तजिनवरपदम्यकमुद्दिश्य द्वितीयवारमपीयमध्य-  
यनीया तत्र चैरमर्थे आरिष्वियते स च यथा-ह अभयदाकर !  
अभयदा जिनास्तेषामाकरः समृद्धोऽभयदाकरस्तस्य संयोधनम् ।  
“ यथा निकरस्तयाऽऽकरोऽपि समृद्धार्थेऽस्यभिधानर्चिताम-य  
सृती । ” त्व मता यमन्त्राचिता, शान्तिं कुरुष्व, तेषु ? श्रीनाभिन-  
न्दनजनेषु इति, गुणमवरपाश्वंगरद्वेमान इति च श्रीशान्तिचत्,  
हे तागम ! ताया लक्ष्या आगमो यस्य यस्माद्धा स तागमस्तस्य  
संयोधनम् । शेष सर्वं श्रीयुगादिदं वदिति अष्टमस्तुत्यर्थः ॥ ८ ॥

अथ सिद्धान्त मभिमेत्य तृतीयवारमपि एषा एवोच्चारणीया  
तत्रायमर्थः यथा ह आगम ! सता-पूर्वोक्ता शान्तिं त्व कुरुष्व, केषु ?  
श्री नाभिनन्दनजनेषु इति श्रीशान्तिजिनवत्, ह अनेम ! न  
विद्यते नेमाऽवधिमर्यादा खंडो वा यस्या सा अनेमा, अनेमा निः-  
सीमा अखण्डा वा ईलेक्ष्योर्यस्य सोऽनेमेस्तस्य संयोधनम् । “ धर्म  
दानादिक नेमस्त्वर्द्धभाकारगर्तयो, अथौ कैतवे फात्रे ” ( द्वि०  
का० श्लो० ३३६-३३७ ) इत्यनेकार्थरचनात् । यथा हे अनेमे !  
नेम-कैतव इ कामयेति द्वन्द्वं ततो न भरत नेमयो कैतरकामो  
यस्मात् सोऽनेमेस्तस्य संयोधनम् । ह अनेमे ! त्व किं रिशिष्टः ?

गुणप्रवरपार्श्वगर्द्धमानः-गुणै प्रवरा पार्श्वगा. आरुर्णयितारो  
 जनान्मैर्द्धमानः । ह अभयत्कार । न विद्यत भयदाकरतानि  
 पूर्वात्करपाणि यस्मात्तम तथा तस्य मयोधनम् । इत्येक एवार्थे ।  
 अन्यत्सर्वे श्रीआदिदेवदिति नवमस्तुत्यर्थे ॥ ९ ॥

अथाधिष्टायरुदेर समुद्दिश्य चतुर्थारमभ्येपैत्र कयनीया  
 तत्रायमर्थे प्रादुष्टिपते यथा ह अर्द्धशशप्रभो । यक्षाणा प्रभु यक्ष-  
 प्रभु. अर्द्धत यक्षप्रभुरर्द्धशशप्रभुस्य सर्वोयनम् । अथवा ह अर्द्धशश  
 हे प्रभो । ह स्वामिन् । इति पृथक् पत्, त्वं सता लक्ष्मीयुक्ता शान्ति  
 कृष्य, रेपु ? श्री नाभिनन्दनजनेपु इति श्रीशान्तिदेवदेव ।  
 न्वं हि विशिष्टः ? गुणप्रवरपार्श्वगर्द्धमानः-गुणै प्रवरा. पार्श्वगा  
 दृष्टेष्वाद्यो भूयान्मैर्द्धमानः । = अभयत्कार । ह तागम ।  
 इत्यामरणद्वय प्रकारानरण द्वितीयार पूर्वं व्याख्यात सर्वैर्वसोऽर्थे  
 अन्येषामर्थानामभविषात् अन्यसर्वे श्रीरूपमजिनपक्षरदिति  
 दशमस्तुत्यर्थे ॥ १० ॥

अथाधीप्सितगुरुवर्णनन्वेनेयमपि स्तुतिः प्रकटनीयात्तत्रार्था  
 यथा-ह विजयदानगुरो ! मता लक्ष्मीसहिता शान्ति कृष्य, रेपु ?  
 श्रीनाभिनन्दनजनेपु इति श्रीशान्तिवत् । त्वं हि विशिष्टः ? गुण-  
 प्रवरपार्श्वगर्द्धमान -गुणै. प्रवरा' पार्श्वगा श्रीहोरविजयमृरि-  
 मगुत्वा विनेयविषोपास्त्वैर्द्धमानः, न्वं हि विशिष्टः ? प्रसर, रेपा ?  
 सता अन्यत्सर्वे श्रीमारुद्वदरदिति प्रकटशमोऽर्थः ॥ ११ ॥  
 गोति -श्री विजयदानमूरे विनेयशिथुना कृता स्तुतिरिय तां ।



संज्ञाय च त्रिषुधा येऽमत्सरा मग्यनुग्रहे कृत्वा ॥ १ ॥  
 इति श्रीआदिनाथ १ श्रीअभिनन्दन २ श्रीज्ञानि ३ श्रीनेपि  
 ४ श्रीवार्ध ५ श्रीवीर ६ श्रीसाधारणजिनानां ७ तथा श्रीद्वि  
 जयदानश्रीराणा स्तुत्यवृत्तिः सपूर्णा ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय  
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

## ॥ पट् सन्धाना स्तुतिः ॥

श्रीमत्साराद्यमस्कृत्य, सर्वानेकस्तुतेरियम् ।

व्याख्या प्रतन्यते पद्भिः, प्रकारैर्वाधहनय ॥ १ ॥

सा चेयम् श्रीवर्द्धमानाजितभारतीश, प्रथोधराया यशसांभसेव ।

समेववल्लीजिनराजराजी-श्रुतानिश्च संमदटाप्रपुसाय ॥ १ ॥

इति श्रीअजितनाथ १ श्रीवीरजिन २ श्रीसाधारण ३ जिनाना  
 स्तुतिः सपूर्णा ॥

व्याख्या—ह श्रीवर्द्धमान ! श्रियाऽष्टमहाप्रतिहार्यरूपया वर्द्ध-  
 मानस्वस्य संबोधनम् । हे अजित ! यद्वा श्रिया वर्द्धमानधासौ  
 अजितश्चेति कर्मधारयस्तस्य संबोधनम् । ह भारतीश ! भया का  
 न्त्या रतीश कदर्पं स तथा तस्य संबोधनम् । कंदर्पबद्रूप इत्यर्थः ।  
 हे जिन ! जयति रागान्निश्चुनिनि जिनस्तस्य संबोधनम् । ह राजरा  
 जीस्तुत ! राज्ञा-भूपतीना राजी-श्रेणिस्तया स्तुतस्तस्य संबोधनम् ।

यद्वा हे जिनराजराजीस्तुत ! जिनाः सामान्य केरलिनाः, राजानथ  
 प्रतीता एव, तेषा राजी-श्रेणिस्तया स्तुतस्य संबोधनम् । कथम् ?  
 अनिश निरतर हे समदद ! समदो हर्षस्त दत्तातीति समददस्तस्य  
 संबोधनम् । केषाम् ? आप्तपुसाम् आप्ताः-सत्याः ये पुमासस्तेषामित्यर्थः  
 “ आप्तो लब्धे च सत्ये चाप्ताप्तिः समद्धलाभयो ” ( द्वि० का०  
 श्लो० १७० ) रित्यनेकार्थवचनात् । यद्वा हे समदद ! सम्-सामस्त्ये-  
 न, मदं घति-च्छिनचीति समददः तस्य संबोधनम्, केषां ? पुसां,  
 हे आप्त ! देवाधिदेव ! “ देवाधिदेव रोधिद-पुरुषोत्तम वीतरागाप्ता ”  
 ( प्र० का० श्लो० २५ ) रित्यभिमानचिन्तामणिवचनात् । त्वमेव,  
 धराया-पृथिव्या, यशसा अट्टधः वृद्धिं प्राप्तवानि-त्यर्थः, अत्र एव-  
 कारोऽन्ययोगव्यवच्छेदार्थः, इव यथा, अभसा-चारिणा, चञ्च्री,  
 वृद्धिं प्राप्नोति तथा त्वमपि यशसा वृद्धिं प्राप्तवान् । ननु अट्टध इति  
 क्रियापद आत्मनेपदि रातुत्वान्कथं सजाधदीतीति चेदुच्यते “ शुद्ध-  
 भ्योऽद्यतन्या वे ” ति ( सि० ३ । ३ । ४४ ) सूत्रेणाप्रतनीविषये श्रुता-  
 दीनां धातूनाम् आत्मनेपदस्य वैकल्पिकत्वात्परस्मैपदमिति “ लृदि-  
 द्युतादि पुष्पादेः परस्मै ( सि० ३ । ४ । ६४ ) इति सूत्रेण कर्तर्यद्  
 द्विच्चाक्षगुण इत्यादिनाऽट्टध ” इति प्रयोगसिद्धि इयं कदा श्रीअ-  
 जितनाथ एव मूलनायकस्तदा तं जिनं स्वीकृत्य प्रथममध्ययनीया  
 इति प्रथमस्तुत्यर्थः ॥ १ ॥

यदा श्रीवीरजिनो मूलनायकस्तदापीय तमगीकृत्य पूर्वं वक्तव्या  
 तत्रवेत्यमर्थः प्रत-यते-यथा हे श्रीवर्द्धमान ! त्रिया-पूर्वव्यापणित-  
 रूपया युतो वर्द्धमानः श्रीवर्द्धमानस्तस्य संबोधनम् । हे आजितभार-

तोश ! आसपन्तात् जितो भया कात्या र्नीशो येनासौ आजिन-  
 भारतीशस्तस्य सरोधनम् । अथवा ह अजित ! न जितो देवेन्द्रादिभि-  
 रित्यजितस्तस्य सरोधनम् । हे भारतीश ! इति पूर्ववत् । यद्वा ह  
 अजितभ ! अजिता भा कान्तिर्यस्यासौ अजितभस्तस्य सरोधनम्  
 अनेनानुपमकान्तिमस्य सूचितम् । ह अरतीश ! न विद्यते रतीश,  
 कदर्पे यस्यासौ अरतीशस्तस्य सरोधनम् । त्वमेव धराया यशसाऽ-  
 वृष अन्यच्छेषम्—श्रीअजितजिनपक्षवदिति द्वितीयस्तुत्यर्थे ॥२॥

यद्वैताभ्या तीर्थेष्टुच्चापय, कश्चिन्मूलनायनस्तदा विवक्षापा-  
 धान्यादेव त अग्रज जिनचेतमि अधिकृत्य एषापि पूर्वमुच्चार्या तत्राऽर्थो  
 यथा ह आप्त ! ह जितेश्वर ! त्वमेव धराया यशसाऽऽद्यः ह वर्द्धमान !  
 इत्यजितजिनवत् ह आजितभारतीश ! अस्यायंस्त्रिधापि श्रीश्रीरपक्षवत्  
 शेष सर्व श्रीअजितपक्षवदिति तृतीयस्तुत्यर्थे ॥ ३ ॥

अथ समस्त जिनवरश्रेणिमुद्दिश्यापि द्वितीयारमेर्षय भणनी-  
 या तत्र चायमर्थ, प्रकाशयने यथा ह जिनराजराजि ! जिनाना सा  
 मायमप्रलिना म ये राजंत शोभन्ते इति जिनराजास्तेषा राजी-श्रेणि  
 सा तथा तस्या सरोधनम् । त्वमेव धरायां यशसा अटधः त्व किं  
 विशिष्टा ? ईस्तुता ईर्लक्ष्मीस्तया स्तुता । श्रीवर्द्धमाना इत्यजित  
 जिनवत् । आजितभारतीशा अस्यार्थो द्विशाऽपि श्रीमहावीरवत् पर  
 स्त्रीलिंगकर्तृविशेषण वन व्याख्येयमित्येतत्पदद्वयम् । ह अजित ! हे  
 भारतीश ! इत्यामत्रणद्वयस्य स्त्रीलिंगेऽसंभ्रित्वाद्वा नोररोहृत ।  
 त्व किं विशिष्टा ? समष्टा समन्तो हर्षस्त दयातीति समददा, केषाम् ?  
 आप्तपुसा अन्यच्छेष श्रीअजितपक्षवदिति चतुर्थस्तुत्यर्थे ॥ ४ ॥

अथ श्रुतज्ञानहेतुभूता श्रीभगवद्गिरमाश्रित्य तृतीयवारमपीय  
 कथितव्या तत्रार्थो यथा ह अजितभारति ! न जिता कुनीर्यिकु वादि  
 भिरित्यजिता अजिता चासौ भारती चाजितभारती तस्या. सवो-  
 धनम् कथा ? जिनानामितिगम्य । त्वमेव धराया यशसा अवृधः ।  
 त्वं किं विशिष्टा ? श्रीवर्द्धमाना । पुन किं विशिष्टा ? ईशा स्वामिनी ।  
 यद्वा, ईशा समर्या । त्वं किं विशिष्टा ? जिनराजराजीस्तुता, जिनाः-  
 छद्यस्थवीतरागा स्वल्निनो वा, राजानश्च तेषां राजी श्रेणिस्तया  
 स्तुता । पथमनिश, त्वं किं विशिष्टा ? सपददा केषां ? आप्तपुसाम् ।  
 वृष्टातस्तु श्रीअजितजिनपक्षवदिति पथमस्तु-अर्थः ॥ ५ ॥

अथाधिष्टायिका सरस्वतीदेवीं उररीकृ य चतुर्थवारमप्येषा एव  
 वाच्या, तत्र वैअर्थः कथ्यते तद्यथा ह अजितभारति ! न जिता  
 देवादिभिरित्यजिता अजिता चासौ भारती चाजितभारती तस्या.  
 सवोधनम् । त्वमेव धराया यशसा अवृधः, त्वं किं विशिष्टा ? श्रीवर्द्ध-  
 माना । पुनस्त्व किं विशिष्टा, ईशा इति श्रीभगवद्विर्वत्, त्वं किं  
 विशिष्टा ? जिनराजराजीस्तुता इत्यपि भगवद्विर्वत्, पर तत्सर्व-  
 धिस्वरूपरूपनेन । त्वं किं विशिष्टा ? सपददा, कथा ? आप्तपुसा  
 अर्थः सर्वोऽपि श्रीअजितजिनवदिति पठमस्तुत्यर्थः ॥ ६ ॥

श्रीमद्विजयदानाह-सूरीन्द्राणा मसादतः ।

मयाऽस्या. सस्तुतेष्टीका कृता सशो-यता युधै ॥ १ ॥

इति श्रीअजितजिन १ श्रीविरजिन २ श्रीसागरजिनाना  
 ३ स्तुत्यवचुरिः संपूर्णा । ग्रथाग्र १७५ मन्त् १६१९ र्थ कार्तिक  
 वदि अप्टम्या गुरौ त्रिभित्त पम्तरुमित्.

## ॥ अथविद्वद्गोष्ठी ॥

श्रीभोजराजसभायां, पचशतपण्डितपूरितायां, विद्यागुणगो-  
ष्ठ्या, जायमानाया । श्रीधनपालपण्डितेन, जिनधर्मरतेन, राज्ञोऽप्रे  
श्रोक्तम् येषां न विद्या, न तपो, न दान, न चापि शील, न गुणो, न  
धर्मः (न च धर्मबुद्धिः) ते मर्त्यलोके भूवि भारभृता, मनुष्यरूपेण  
मृगाश्चरन्ति ॥ १ ॥

इति पण्डितवचनं श्रुत्वा मृगः प्राह—ममेद्वरूपमग्नं कस्माद्-  
व्यते—यतः—स्वरे शीर्षं जने मांसं, स च च ब्रह्मचारिणि ।

शृङ्गं योगीश्वरे दद्यात्, मृतं स्त्रीषु स्वलोचने ॥ २ ॥

तेन ममैव त्रिधमनुष्योपमानं न युक्तं, ततः, पुनरपरपण्डितेनोक्त-  
येषां न विद्या० मनुष्यरूपाः पशवश्चरन्ति ॥ ३ ॥

इति श्रुत्वा गौराह—

वृणमपि दुग्धं घवलं, लक्षणं गेहस्य मण्डनं भवति (परम) ।

रोगापहारि मूत्रं, पुच्छं सुरकोटिसंस्थानं ॥ ४ ॥

तेनैतदनुपमानं न युक्तम्, ततोऽन्यनोक्तम् येषां न विद्या०

मनुष्यरूपाणि तृणानि मन्ये ॥ ५ ॥

इति श्रुत्वा वृणजातिराह—गवि दुग्धं रणे श्रोत्रे, वर्षहिमन्तयोरपि ।

नृणां प्राणमहं स्यात् तत्, तत्समत्वं कथं मम ॥ ६ ॥

सामान्योपमानं महता न रोचते—(अपरेणोक्तम्) येषां न विद्या०

मनुष्यरूपैश्च भवन्ति वृक्षाः ॥ ७ ॥

दृक्षाः प्राहुः—ऋष्यां कुर्मो वय लोके, फलपुष्पाणि दग्धहे ।

पक्षिणा सर्वदाधारा, गृहाद्रीना च हतयः ॥ ८ ॥

परोपकारिणा निरुपकारिणा साम्यं कथं ? पुनः करीश्वरेणोक्तम्—

येषां न विद्या० मनुष्यरूपेण हि धूलिपुञ्जाः ॥ ९ ॥

इति श्रुत्वा रणुराह— कारयामि शिशुक्रिडा, पङ्कनाशं करोमि च ।

मत्तोऽजनि रजःपर्व, लेखे सिद्धं फलमदम् ॥ १० ॥

पुनरपरेण विदुरेणोक्तम्—येषां न विद्या०

मनुष्यरूपा भक्षणस्वरूपाः ॥ ११ ॥

ततः श्वा प्राह—स्वामिभक्तं मुचैतन्यः, स्वल्पनिद्रं सदोद्यमी ।

अल्पसतोपरान् शूरः, तस्मात् तत्तुल्यता कथम् ॥ १२ ॥

तेन ततोऽधिकं गुणोऽहम् कथं समः, पुनः प्रवीणेन प्रोक्तम् येषां न

विद्या० मनुष्यरूपेण खराः स्फुरन्ति ॥ १३ ॥

इति श्रुत्वा खरः प्राह—शीतोष्णं नैव जानामि, भारं सर्वं वहामि च ।

ठणभक्षणसंतुष्टं, सदाऽपि प्राञ्जलानन ॥ १४ ॥

पुनः कोविदेन गदितम्— येषां न विद्या०

मनुष्यरूपेण भ्रमन्ति काकाः ॥ १५ ॥

इत्युक्ते काकः प्राह—मियं दूरं गतं गेह—प्राप्तं जानामि तत्क्षणात् ।

न विश्वसामि कस्यापि, काले चालयकारकः ॥ १६ ॥

अहं तु बहुगुणः कथं तत्सदृशं स्याम् ? पुनरपरो निपुणो यमाण—

येषां न विद्या० मनुष्यरूपेण भ्रमन्ति चोष्टा ॥ १७ ॥

उष्टः प्राह— वपुर्विषममंस्थानं, कर्णज्वरकरोरवः ।

करमेणाशु गत्यैवाऽच्छादिता श्लेषसंततिः ॥ १८ ॥

[ एकस्यां घटिकाया योजनागामी तदा नृपनिमान्याः  
भारोद्बहनसमर्थः कथं समो निगुणैः माद्वैम् ]

एकेनैवगुणेन राजमान्य म्या चन्दनरत्, अपरं प्राह यथा न विद्या०  
मनुष्यरूपेण च भस्मरूपाः ॥ १९ ॥

रक्षा प्राह— मूढरुमध्ये क्षिप्त्वा, परोम्यह सकलधान्यरक्षा द्रागू ।  
मां वन्दन्ते मनुजा ; सुग्यशुद्धिकरी सुगथा च ॥ २० ॥

विदुषा प्रोक्तम्—

येषा न विद्या, न तपो, न दाने, न चापि क्षीलं, न गुणो, न धर्म  
(न च धर्मबुद्धिः) ।

ते मर्त्यलोक भुवि भारभूता, जानाम्यहं नैव च कीदृशाः स्युः ॥२१॥

॥ इति विद्वद्गोष्ठी समाप्ता ॥

### नरवृत्ताष्टकम्

दक्षो दान स्तब्धो, दुर्मन्त्री शुष्कमिन्धन त्यजति ।

अर्थकृतुश्च लोभे, नरस्य वृत्ताष्टकं नाम ॥ ॥ १ ॥

दक्ष श्रियमधिगच्छति, पथ्याशी 'कल्पता' मुखमरोजी ।

उत्तुक्तो विद्यात्त, धर्मार्थिर्ग्रांसि च विनीत ॥ ॥ २ ॥

दान दरिद्रस्य विभो प्रशान्ति-युना तपो ज्ञानयता च मौनम् ।

इच्छानिष्टुत्तिश्च सुखोचिताना, दया च भूतेषु दिव नयन्ति ॥ ३ ॥

स्तत्रस्य नस्यति यतो विपमस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुम्भधर्मस्य धर्म ।  
 विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौरस्य, राज्य प्रपन्नसचिप्रस्य न  
 रात्रिप्रस्य ॥ ४ ॥

दुर्मित्रिण कमुपयान्ति न नोतिनोपा\*, सन्नापयन्ति रमप\*यसुर्जन रोगाः  
 क श्रीर्न दर्पयति न न निहन्ति मृत्यु, क स्वीकृता न विपयाः परि-  
 तापयन्ति ॥ ५ ॥

शुष्केन्वर्तव्यद्विरुपति वृद्धि, मूर्तेषु कोपश्चपत्रेषु शोक\* ।  
 कान्तामृ कामो निपुणेषु रिक्त, धर्मो दयावत्सु शयत्सु धैर्यम् ॥ ६ ॥  
 त्यजति भयमकृतपाप, मित्राणि गूढ प्रमादिन विद्या ।  
 ऋीः कामिनमत्रम श्रीः, स्त्री क्रूर दुर्जन लोक\* ॥ ७ ॥

अर्थस्य मूत्र निकृति क्षमा च, कामस्य विक्त हि वपुर्दयश्च ।  
 धर्मस्य दान हि दया द्रमश्च, मोक्षस्य सर्वार्थनिट्टित्तर ॥ ८ ॥  
 ऋतौ विवाह यसने रिपुक्षये, प्रियासु नारीप्यधनेषु रन्मृषु ।  
 यशस्करे कर्मणि मित्रसग्रहे प्यतिव्ययो नाम्नि नगधिपाष्टसु ॥ ९ ॥

॥ इति नरवृत्ताष्टकम् ॥

॥ वानरवल्गुभाष्टकम् ॥

माधुर्यसुत्साहसुजीर्णरूप, श्रुतेन गात्रेण जवो हि वेद्य ।  
 नीतिप्रिया वानरवल्गुमेत\*, -सुच्छिदनावृत्तमुत् जहार ॥ १ ॥  
 माधुर्य प्रपदाजनेषु रल्लिन, दासि यमार्य जने  
 गीर्य गृध्रेषु मार्शन गुरुजने, धर्मिष्ठना साधुषु ।



मर्मक्षेप्वनुयर्तना बहुविधा, मार्गं जने गर्विने,  
 शाठ्यं पापजने नरस्य फणित, पर्याप्तमष्टौ गुणाः ॥ २ ॥  
 उत्साहसपन्नमदीर्घमूत्र, त्रिर्याविधिं व्यसनेष्वसक्तम् ।  
 शूरं कृतज्ञं हृदसौहृदं च, लक्ष्मीः स्वयं वाञ्छति वासहतो ॥ ३ ॥  
 सुजीर्णमन्नं सुविनक्षणं सुतः, सुखाश्रिता सौनृपतिः सुसेवितः ।  
 सुचिन्त्यं चोक्तं सुविचार्यं सत्कृतं, सुदीर्घकालेऽपि न याति वि-  
 क्रियाम् ॥ ४ ॥

रूपं जरा सर्वं सुखं हि तृष्णा, खलेषु सेना पुरुषाभिमानम् ।  
 याश्चां सुहृद्वै गुणमात्मपूजा, चिन्तां घले हन्ति दयां च लक्ष्मीः ॥ ५ ॥  
 श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्खता, म्रियेण नारी सलिलेन निम्नगा ।  
 निशा शशाङ्गेन धृतिं समाधिना, नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥ ६ ॥  
 शाठ्येन मित्रं फणटेन धर्मं, परोपतापनं समृद्धिभावम् ।  
 सुरेण विद्यां पराणं नारीं, वाञ्छति ये व्यक्तमपण्डितास्ते ॥ ७ ॥  
 जतो हि सप्ते परमं विभूषणं, त्रपाङ्गनाया कुशला तपस्विनः ।  
 द्विजस्य विप्रैश्च मुनेरपि क्षमा, पराक्रमः शस्त्ररलोपजीविनः ॥ ८ ॥  
 वैश्या पानरतं नष्टं कुपठितं, मूर्खं परिग्राहकम्,  
 योष्यं कापुरुषं विटं त्रिवयसं, स्वाभ्यायहीनं द्विजम् ।  
 राज्यं बालनरन्द्रमत्रिरहितम्, मित्रं छलान्वेषितं,  
 भार्यां योवनमर्षितां पररताम्, मुञ्चति ते पण्डिता ॥ ९ ॥

॥ इति चानरचन्द्रभाष्टकम् ॥

## ॥ सत्पुरुषाष्टकम् ॥

शीतांशुस्ते केचित्, नम्रत्ये ये प्राप्ते फरे विपदि ।

वाञ्छा सज्जनगर्वं, सत्पुरुषाष्टकं गदितम् ॥ १ ॥

शीतांशुः किं मुषायामभवदुत सुधै वाभवच्छीतरश्मा-  
षाहोधिद् द्वावपीमौ मृगदृशिघटिता पेतयोर्वा मृगाक्षी ।

एकैकं सज्जनाद्या समजनि जनितः, सज्जनो वा किमेभिः,  
संदेहश्चायमित्थं यथमपि मनसो, जीवता न प्रयात. ॥ २ ॥

ते रुचिस्त्रिजकान्ति मुन्दरतया, चेतश्चमत्कारिणो,  
दृश्यन्ते परमोत्सव नयनयो, सपादयन्तो जनाः ।

अन्तर्ये मनसः प्रविश्य सहसा, तरतैः स्वकीयैर्गुणै  
राजन्मावधि नोचरन्ति हृदया-दुत्कीण विम्बा इव ॥ ३ ॥

नम्रत्येनोद्धमतः परगुणनुतिभिः, स्वान् गुणान् रयापयन्तः,  
पुष्पानि स्वीयमर्थं सततकृतमहा-रम्भयत्नाः परार्थे ।

सान्त्याचाक्षेपदक्षान् खरमुखरमुखान्, द्रुमुखान् दूषयन्तः,  
सन्नः साश्रयैचर्याः स्वयमिव मुनयो, वदनीया भवन्ति ॥ ४ ॥

ये प्राप्ते व्यसनेऽप्यनादृक्प्रिय, सपत्सु नैरोद्धताः,  
प्राप्ते नैव पराद्मुखाः प्रणयिनि, प्राणोपयोगैरपि ।

क्षीमन्तः स्वगुणमपश्चनविधा-वन्यस्तृतावु मुक्ता  
धिग्घात्रा निपुणेन तेऽपि न कृताः, कल्यान्तदीर्घायुषः ॥ ५ ॥

हर श्लाघ्यस्त्यागः, शिरसि शुरुपादप्रणमनम्,  
मुखे सत्या वाणा, क्रमश्चमलयोस्तीर्थगमनम् ।

- हृदि स्वच्छावृत्तिः, श्रुतमधिगतं च श्रवणयोः,  
विनाऽप्यैश्वर्येण, स्फुरति महता मण्डनमिदम् ॥ ६ ॥
- भिया नाय्यावृत्तिर्मलिनममुभद्रेऽप्यमुकर ।  
मसन्तो नाभ्यर्ध्याः, मृद्वपि न याच्यस्तनुधनः,  
विपद्युच्चैः स्येय पदमनुविधेय च महताम्,  
सता केनोद्दिष्ट विपममसिधाराव्रतमिदम् ॥ ७ ॥
- वाञ्छा सज्जनसङ्गमे परगुणे, प्रीतिर्गुरौ नम्रता,  
विद्याया व्यसन स्वयोपिति रति-र्षोकापवादान्द्रयम् ।  
भक्तिशार्दहेति शक्तिरात्मदमने, संसर्गमुक्तिः खले,  
यत्रैते निवसन्ति निर्मलगुणाः श्लाध्यास्त एव क्षितौ ॥ ८ ॥
- गर्वं नोद्वहते न निन्दति पर, नो भापते निष्ठुरम्,  
घक्तं केनचिदभियेण सहते, क्रोध न चालयते ।  
श्रुत्वा काव्यमलक्षण परकृत, संतिष्ठते मूकवत्,  
दोष च्छादयते स्वयं न कुस्ते, एतत्सता चेष्टितम् ॥ ९ ॥

ग्र. ॥ २० ॥

॥ इति सत्पुरुषाष्टकम् ॥



पद्मपावश्यकसत्क्रियासु निरतो धर्मादिरागं वहन्,  
साद्धं योगिभिरात्मपावनपरै रत्नत्रयाङ्कृतैः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—इ साधो ! स्त्री, जीव तथा पशु विनाना स्थानरुने विषे निरतर रहे अने पारक घर नहि करावठा तेमज अवसर ममाणे मलेला आहारने भोजन कर. वली आत्मायी पवित्र तेमज ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप त्रण रत्नोयी सुशोभित एवा योगी पुरुपोनी साये धर्मादि राग करतो छतो छ प्रकारनी आरश्यक क्रियाने विषे तत्पर था. ॥ ५ ॥

दुर्गर्धं वदनं वपुर्मलमृदं भिक्षाटनाद्भोजनम्,  
शय्यास्थदिलभूमिषु प्रतिदिनं कृश्या न ते कर्षटम् ॥  
मुढ मुडितमर्द्धदग्धशववस्त्वं दृश्यसे भो जनैः,  
साधोऽप्याप्यवलाजनस्य भवतो गोष्ठी कथं रोचते ॥ ६ ॥

शब्दार्थ.—मुख दुर्गधवातु, शरीर मलनु घर, भिक्षा मागवाधी भोजन, प्रति दिवस पृथ्वीने विषे शयन, केड उपर वस्त्र पण नहि पशु, अर्द्धां शवनी पेठे मापु मृदेतु. आ ममाणे आकृतिवाला तने हमेशां माणसो जूरे छे छतां हे साधो ! तने आज सुधी स्त्रीयोनी साये वातो करवी केम रचे छे ? ॥ ६ ॥

अंग शोणितशुद्धसभवमिदं मेढ्रोस्थिमज्जाहृत्,  
वाद्ये माक्षिकपत्रसन्निभमहो चर्मवृत्तं सवत ॥  
नो चेत्काकटृकान्निभिवंपुरहो जायेत भक्ष्यं ध्रुवम् ॥  
दृष्ट्वाद्यापि शरीरपद्मनि कथं निर्वेदना नास्ति ते ॥ ७ ॥

किं वदत्यजनेन भो मुनिरसापेतावता जायते,  
क्ष्येडेन च्युतपद्मगो गतविप. किं जातवान् भूतले ॥

मूलं किं तपसः क्षमैन्द्रियजय, सत्य सदाचारता-  
रागादींश्च विभक्तिं चेन्न स यतिर्लिंगो भवेत्केवलम् ॥ ३ ॥

शब्दार्थ- अरे ! वदने त्यजवापी श्रु ? आ पुरुष ए वदने  
त्यजी देवापी श्रु मुनि थाय ? अर्थात् न थाय, विप ग्वरी पडेछो  
अर्थात् विप रहित एवो सर्व श्रु पृथ्वीने विप थाय खरो ? अर्थात्  
न थाय, तपनु मूल क्षमा, इंद्रियजय, सत्य अने सदाचारपणुं छे  
छता जो यति रागादिकने धारण करछे तो ते यति नहि, परतु मात्र  
लिंगधारी कहेवाय ॥ ३ ॥

किं दीक्षाग्रहणेन भो यदि धनाकाक्षा भवचेतसि,  
किं गार्हस्थ्यमनेन षपधरणेनामुत्तर मन्यसे ॥

द्रव्योपार्जन चित्तमेव कथयत्षभ्यतरस्थागज,  
नो वेदर्यपरिग्रहग्रहमतिर्मिक्षोर्न सपथते ॥ ४ ॥

शब्दार्थ- हे यति ? जा धननी इच्छा थाय तो दीक्षा लेवापी  
श्रु ? कारणके, ए यतिवपने धारण करवापी ग्रहस्यपणाने तु श्रु  
खोटो माने छे ? द्रव्य मेलग्रानु चित्तज अंतरना कामने देखाडी  
आपे छे अने जो अतरनी कामविकार न होय तो साधुने धनने  
अने स्त्रीने ग्रहण करवानी इच्छा श्रुयतीज नथी. ॥४॥

योपापदकगोविर्जितपदे सतिष्ठ भिक्षो सटा,  
श्रुक्ताहारमकारित परगृहे लब्ध ययासभवम् ॥

पद्मधावश्यकसत्क्रियासु निरतो धर्मादिरागं वहन्,  
साद्धं योगिभिरात्मपावनपरै रत्नत्रयाङ्कितैः ॥ ५ ॥

शब्दार्थ-हे साधो ! स्त्री, जीव तथा पशु विनाना स्थानरुने विपे निरतर रहे अने पारके घर नहि करावेत्रा तेमज अवसर प्रमाणे मलेला आहारने भोजन कर. वली आत्माथी पवित्र तेमज ज्ञान, दर्शन अने चारित्ररूप त्रण रत्नोथी सुशोभित एवा योगी पुरुषोनी साथे धर्मादि राग फरतो छतो छ प्रकारनी आवश्यक क्रियाने विपे तत्पर था. ॥ ५ ॥

दुर्गंधं वदनं वपुर्मलगृहं भिक्षाटनाद्भोजनम्,  
शय्यास्थडिलभूमिषु प्रतिदिनं कथ्या न ते कर्पटम् ॥  
मुहं मुडितमर्द्धदग्धश्चत्रवप्य दृश्यसे भो जनैः,  
साधोऽप्याप्यबलाजनस्य भवतो गोष्ठी कथं रोचते ॥ ६ ॥

शब्दार्थ-मुख दुर्गंधरालु, शरीर मलनुं घर, भिक्षा मागवाची भोजन, प्रति दिवस पृथ्वीने विपे शयन, केड उपर वस्त्र पण नहि प्यु, अर्द्धा शवनी पंठे मायु मुडेलु, आ प्रमाणे जाकृतिवाला तने हमेशा माणसो जूवे ठे छता हे मायो ! तने आज मुधी स्त्रीयोनी साथे वातो करवी कम रुने छे ? ॥ ६ ॥

अंगं शोणितशुक्रसंभवमिदं मेदोन्मियमज्जाङ्गुर्न,  
बाह्ये मांसिकपत्रसन्निभमहो चर्मावृतं सवतं ॥  
नो चेत्काकटुकादिभिर्गणुरहो जायेत भक्ष्यं ध्रुवम् ॥  
दृष्ट्वाद्यापि शरीरपद्मनि कथं निर्वेदना नास्ति ते ॥ ७ ॥

શબ્દાર્થ—આ શરીર રધિર અને ઘોર્યથી ઉત્પન્ન થયુ છે. તેમજ તે ચરથી, હાઢકા અને સ્નાયુથી भरपुर છે. ઘલી બહારના ભાગમા માલ્લીઓની પાલ્લોના સરઘ્વી ચામઢીથી ચાર તરફ ઢકાયલ્લુ છે. જો આ વર્ણન કરવા પ્રમાણે શરોર ન હોય તો તે શરીર કાગઢા અને નાર વિગેરે જીવોથી આશ્ચર્યકારી રીતે મહ્તળ કરાય છે, તેમા શરીરને જોડને પળ તને તે શરીર ઉપર વૈગમ્ય કેમ નથી થતો.

સ્ત્રીણાં ભાવવિલાસવિભ્રમગતિ દૃષ્ટાનુરાગ મનાત્,  
માગાસ્ત્વ વિપવૃક્ષપક્કફલવત્મૃસ્વાદવત્યમ્વદા ॥  
ઈપત્તેવનમાનતોઽપિ મરણ ધુસા પ્રયચ્છતિ મો,  
તસ્માત્ દૃષ્ટિવિપાહિવત્પરિહર ત્વં દૂરતોઽમૃત્યવે ॥ ૮ ॥

શબ્દાર્થ—સ્ત્રીયોના શૃગારાદિ વિલાસની વિભ્રમવાલી ગતિ-ને જોડ તુ જરા પળ રાગ ન કર. કારણકે, તે ફક્ત જોવાને અવસરે વિપવૃક્ષના પાપલા ફલની પઠે ઉત્તમ સ્વાદવાલી દેલ્લાય છે. પરતુ હે મુનિ ! તે સ્ત્રી જરાપળ સેવન કરવાથી માળસોને મૃત્યુ આપે છે, માટે તે સ્ત્રીયોને તુ ત્હારા પોતાના જીવિતને માટે દૃષ્ટિ-વિપસર્પની પેઠે દૂરથી ત્યજી દે. ॥ ૮ ॥

યથર્હાચ્છસિ તત્તદેવ વપુષે દત્ત સુપૃષ્ઠ ત્વયા,  
સાર્દ્ધે નૈતિ તથાપિ તે જઢમતે મિત્રાદયો યાતિ કિમ્ ॥  
પુણ્ય પાપમિતિ દ્વયં ચ ભવતઃ પૃષ્ઠેઽનુયાયિવ્યતે,  
તસ્માત્ત્વ ન કૃયા મનાગપિ મહામોહ શરીરાદિષુ ॥ ૯ ॥

शब्दार्थ—तु जे जे वस्तुनी इच्छा करे छे ते ते वस्तु तें शरीरने आपीने तेने पुष्ट बनावी दीधुं, तोपण हे जडबुद्धि ! ते शरीर त्हारी साथे आववानु नथी. वली शु मित्रादि आववाना छे ? अर्थात् तेओ पण आववाना नथी. परंतु पुण्य अने पाप ए बच्चे त्हारी पाछल आववाना छे, माटे तु शरीरादिकने विपे जरा पण महा मोह न कर ॥ ९ ॥

अष्टाविंशतिभेदमात्मनि पुरा संरोप्य सार्धो वृत्त,  
साक्षीकृत्य जिनान् गुरुनपि कियत्कालं त्वया पालितम् ॥  
भक्तु वाञ्छसि शीतघातविहतो भूत्माधुना तद्भूत,  
दारिद्र्योपहः स्वघातमशनं भुक्ते क्षुधार्तोऽपि किम् ॥ १० ॥

शब्दार्थ—हे साधु! तें श्री जिनेश्वरने तथा गुरुने साक्षी करी अष्टाविंश भेदवाला साधु व्रतने अंगीकार करीने केटलोक काल पोख्यु छे वली हमणा ते तु विषयरूप वायुधी हणायो छतो यद्दने तेने भांगवानी इच्छा करे छे परंतु दारिद्र्यधी हणायेलो एवो पण भुख्यो माणस शु पोताना वमन करला पदार्थने खाय खरो ? अथत् न खाय. ॥ १० ॥

सौख्य वाञ्छसि किं त्वया गतभरे दानं तपो वा कृतं,  
नो चेत्त किमिहैवमेव लभसे लब्धं तदत्रागतम् ॥  
घान्य किं लभते विनापि वपन लोके कुटुबीजनो—  
देहे कीटकभक्षितेक्षसदृशे मोह वृथा मा कृयाः ॥ ११ ॥



शब्दार्थ—हे साधु ! तु देह सुखनो इच्छा करे छे ? तो थु तें पूर्वभवे दान अथवा तप कर्तुं छे ? जो तें दान अथवा तप नयी कर्तुं तो तु आ भवमा थु पापवानो छे ? अने सुख प्राप्त करवानी इच्छायी जे शुभाशुभ कर्म कर्तुं छे ते आ भवमा तेनो मेलेज प्राप्त थयेछं छे. दृष्टांत कहे छे के, लोकमा कणनो लोक थुं वाव्या विना क्यारे पण धान्य पामे खरा ? माटे कोटायो भक्षण करायेली शेर-दीना सरखा देहने विषे वृथा मोह न कर ॥ ११ ॥

यत्काले लघुभादयंदितकरो भूत्वा परेषां गृहे,  
 भिक्षार्थं भ्रमसे तदापि भवतो मानापमानौ नहि ॥  
 भिक्षो तापसवृत्तितः कदञ्चनात्किं तत्स्यसेऽहर्निशं,  
 श्रेयोर्धं क्लिष्टं सद्यन्ते मुनिवर्गैर्वाधा क्षुधापुद्गवा ॥ १२ ॥

शब्दार्थ—जे अउसरें न्दाना पात्रोधो शुशोभित हापवालो यह छोकोना घरने विषे भिक्षाने माटे भमे छे त्यारे पण तने मान अपमान यहुं नयी, हे साधु ! तो पछी तापसवृत्तिने लीधे कुत्सित आहारथी रातदिवस शा माटे रोए करे छे ? कारण वत्तप मुनिओ कल्याणने माटे सुख आत्थी उत्पन्न थयेली यह पीडाओने निधे सहन करे छे.

एकाकी विहरत्यनःरित्यतबन्धिवदो यथा स्वच्छया,  
 योपामध्वस्तस्त्वमेवमपि भो त्यक्तवात्मयूथ यते ॥  
 तस्मिन्नेदमिलापता न भवतः किं भ्राम्यसि प्रत्यहम्,  
 मध्ये साधुजनस्य तिष्ठसि न किं कृत्वा सदाचारताम् ॥ १३ ॥

શબ્દાર્થ—હે મુનિ! જેમ ગાઠીમા જોઢાપેલો ઁક વલદ પોતાની ઘરજી મુજવ ક્રીઢા કરે છે તેમ તુ પળ પોતાના સમૂહને ( મુનિ-સમૂહને ) ત્યજી દઈ સ્ત્રીયોના મધ્યમા આસક્ત યયો છતો ક્રીઢા કરે છે. જો કદાપિ ત્હારે તે સ્ત્રીયોની ઇન્ડા ન હોય તો તું તેઓના મધ્યે નિરંતર શા માટે ફરે છે અને સદાચાર પાલીને સાધુઓના સમૂહને વિષે કમ નથી રહેતો ? ॥ ૧૩ ॥

ક્રીતાન્નં ભવતો મત્કદશને રોપસ્તદા શ્ઠાઘ્યતે,  
મિક્ષાયાં યદવાપ્યતે યતિજનૈસ્તદ્ઘ્યતે સાદરાત્ ॥  
મિક્ષો માટકસન્નસન્નિભવનો પુષ્ટિં વૃથા મા કૃયાઃ,  
પૂર્ણં કિં દિવસાવર્ઘાં ક્ષળમપિ સ્યાતુ યમો દાસ્યતિ ॥૧૪॥

શબ્દાર્થ—જો ત્હારે સરાય મોજનમા પળ વેચાથી અન્ન લાવવું પઢતું હોય તો રોપ કરવો યોગ્ય છે, પરતુ મુનિજનોઁ મિક્ષામા જે અન્ન મેલવાય તેજ આદરથી મોજન કરાય છે, માટે હે મિક્ષુ ! માઢાના ઘર સરલા આ શરીરને તુ વૃથા પોપળ ન કર. કારણકે, શરીરની અઘધિ પૂર્ણ યઈ રહેશે ત્યારે તેને યમ ક્ષળમાત્ર પળ તેમા રહેવા વેશે નહિ. ॥ ૧૪ ॥

લગ્ન્યાન્ન યદિ ધર્મદાન વિપયે દાતુ ન યૈઃ શક્યતે,  
દાસ્ત્રિઢોપહતાસ્તથાપિ ત્રિપયાશક્તિં ન મુચતિ યે ॥  
ધૃત્વા યે ઘરણ ત્રિનેંદ્રગદિત તસ્મિન્ સદા નાદરા-  
સ્તેષા જન્મ નિરર્થક ગતમજાકઠે સ્તનાકારમ્ ॥૧૫॥

शब्दार्थ—जो के जे गृहस्थो पोताने मलेलु अन्न धर्मदान कर-  
घामां आपो शक्तता नथी, जेओ दरिद्रथी हणाया छता पण विप-  
याशक्तिने मूरुता नथी अने जेओ जिनराजे कहला चारित्रने धारण  
करी तेने रिपे आदर करता नथी. ते सर्वेनो जन्म बफरीना कंठे  
रहेला स्तननी पेटे निष्फल गयो छे. ॥ १५ ॥

दुर्गंध नवभिर्गणु. प्रवहति द्वारैरिमै सतत,  
संदृष्ट्वापि हि यस्य चेतसि पुनर्निवेदना नास्ति चेत् ॥  
तस्मात्प्रद्वुवि वस्तु किदृशमहो तत्कारण कथ्यते,  
श्रीग्वंदादिभिरगसरुतिरिय व्याख्याति दुर्गंधता ॥१६॥

शब्दार्थ—आ शरीर नवद्वारोथी हमेशा दुर्गंधनेज रहन करे छे;  
ते शरीरने जोड़ने जे पुरुषना चित्तमा जो वैराग्य नथी यतो तो  
पछी आश्चर्य छे के, तेने पृथ्वी उपर धोजी कइ वस्तु वैराग्यनुं का-  
रण कहैराय ? आ प्रत्यक्ष श्रीखड-चदन विगेरथी करली अंगनी  
संस्कृति पण दुर्गंधनेज प्रगट करे छे. ॥१६॥

शोचन्ति न मृत कदापि रनिना यद्यन्ति गेदे धन,  
तद्येनास्ति रुदति जीवनधिया स्मृत्वा पुनः प्रयहम् ॥  
छुत्वा तद्दृष्टनक्रिया निजनिजव्यापारचिंताकुला-  
स्तन्नामापि च रिस्मरन्ति कतिभिः सरत्सरैर्यापितः ॥१७॥

शब्दार्थ—स्त्री जो घरने रिप धन होय तो मृत्यु पामेला पति-  
नो शोक करती नथी अने जो धन नथी होतु तो आजीविकानी

शुद्धिची तेने दररोज वारंवार मभारीने रुदन करे छ. यन्त्री ते स्त्रीयो पत्निनी वर्ध्देहिक त्रिया करीने पछो पोतपोताना काममां आकुलव्याकुल यद् छवी केटलाक वर्षे तेनु नाम पण विसरो जाय छे. ॥ १७ ॥

अन्येषा मरणं भवानगणयन् स्वस्यामरत्न सदा,  
 देहिंश्चितयसीन्द्रियद्विपयशो भूत्वा परिभाम्यसि ॥  
 अद्य श्व'पुनरागमिष्यति यमो न ज्ञायते तत्परत.,  
 तस्मादा महित कुरुन्वमचिराद्धर्म जिनेन्द्रोदितम् ॥ १८ ॥

शब्दार्थ-६ दहचारो । तु धीजाओना मरणने नहि गणकारतो छनी हमेशा पोताना अमरपणानो विचार करे अने तेथीज तु इन्द्रियरूप हाथीओने यद्य यड भटके छे, परतु मृत्यू जाजे आरगे अथवा काले आरगे ते तत्त्वथी जाणी शक्यातु नथी, माटे तु तरत पोताना हितकारक एवा जिनेश्वर कहेला धर्मने आचरण कर. ॥१८॥

देह निर्ममता गुरी विनयता निच श्रुताभ्यासता,  
 चारित्र्योज्ज्वलता महोपशमता संसारनिर्वन्ता ॥  
 अंतर्बाह्यपरिग्रहत्यजनता धर्मज्ञता माधुता,  
 साधो साधुजनस्य लक्षणमिदं संसारविच्छेदनम् ॥ १९ ॥

शब्दार्थ-६ साधु ! शरीरने विषे निर्ममपणु, गुप्ने विष विन-  
 यणु, निरतर शास्त्रने विषे अभ्यासपणु, चारित्रनु उज्वळपणु,  
 म्होडु उपशमपणु, संसारमा वीराग्यपणु, अंतरना अने वाद्यना परि-

ગ્રહને ત્યજવાપણું, ધર્મહુપણું અને માધુપણું, આ ઉપર કહેલુ સાધુ-  
જનનુ લક્ષણ સસારનો નાશ કરનારુ છે. ॥ ૧૯ ॥

લગ્નવા માનુષજાતિમુક્તમકુલ રૂપ ચ નીરોગતાં,  
બુદ્ધિ ધીધનસેવન મુચરણ શ્રીમજ્જિનેદ્રોદિતય ॥  
લોભાર્થ વમુપૂર્ણહેતુભિરલ સ્ત્રીકાય સૌરયાય મો,  
દેહિન્ દેહમુપોતક ગુણમૃત મકતુ કિમિન્ડાસ્તિ તે ॥૨૦॥

શબ્દાર્થ—હે દેહારી ! મનુષ્યજાતિને, ઉત્તમકુલને, રૂપને, ની-  
રોગીપણાને, બુદ્ધિને, બુદ્ધિવતની સેવાને અને શ્રી જિનરાજે કહેલા  
ચારિત્રને પામીને લોભને અર્થ ધનને ફકડા કરવાના કારણથી  
ત્હાર સર્થુ, શું થોઢા મુલને માટે ગુણથી પૂર્ણ એવા આ દેહરૂપ  
ઉત્તમ નાવને ભાગી નાલ્ખયાની ત્હારી ડચ્છા છે ? ॥ ૨૦ ॥

વૈતાલાકૃતિમર્દદગ્ધમૃતકં દૃષ્ટ્વા ભવત યતે,  
યાસા નામ્તિ ભય ત્વયા સમમદો જલર્થતિ મૃત્યુત્તરમ ॥  
રાક્ષસ્યો મુષિ નો ભરંતિ વનિતા મામાગતા મક્ષિતુ,  
મર્ત્વૈરં પ્રપલ્યાયતા મૃતિભયાત્ ત્વ ત્વ મા સ્યા' ક્ષણમ્ ॥૨૧॥

શબ્દાર્થ—હ યતિ ! વૈતાલના સરસ્વી આકૃતિવાલા અને અર્દ્ધ-  
દગ્ધ યયેલા શન સરસ્વા તને જોડે જે સ્ત્રીયોને મય થતો નથી,  
તેજ સ્ત્રીઓ તમને ઉત્તર આપે છે. શું તે સ્ત્રીયો પૃથ્વીને વિષે રાક્ષ-  
સીયો ન કહેવાય ? અર્થાત્ કહેવાય ‘ તે સ્ત્રીઓ મને મક્ષણ કરવા  
આવી છે. ’ એમ માની તુ મૃત્યુના ભયથી નાસી જા, ત્યા ક્ષણમાત્ર  
પણ રહિશ નહિ. ॥ ૨૧ ॥

मागास्त्व युवतोऽगृहेषु सतत विश्वासता सशयो-  
 विश्वासे जनवाच्यता भवति ते न स्यात्पुमर्थं ततः ॥  
 स्वाध्यायानुरतो गुरुक्तवचन चित्ते समारोपयन्,  
 तिष्ठ त्वं विकृतिं पुनर्जसि चेद्यासि त्वमेव क्षयम् ॥२२॥

शब्दार्थ-तु स्त्रीयोना घरने विषे निरंतर विश्वासपणुं न कर-  
 कारणके, विश्वास करवायी सशय अने लोकमा निंदा याय छे  
 अने तेयो त्हारो फाइ पुरपार्थ यतानो नयी. माटे तु गुरुना कहेला  
 वचनने चित्तमा धारण करी भणवा भणारवामा आसक्त थयो छतो  
 रहे. वली जो तुं विकार पाम्यो तो निश्चे नाश पामीश ॥२२॥

किं सस्कारशक्तेन विद् जगति भो कास्मीरज जायते,  
 किं देह शुचिता प्रजेदनुदिनं प्रक्षालनादजसा ॥  
 सस्कारो नखदतवक्रवपुषा साधो त्वया युज्यते,  
 नाकामी क्लि मदनमिय इति त्व सार्थक मा कृत्या ॥२३॥

शब्दार्थ-हे मुनि ! जगत्मा सेंकडों उपायोधी पण थुं विष्टा  
 होय ते कंकु थाय खर ? अथवा हमेशा सेंकडोवार प्रयत्नवडे धो-  
 वायी शरीर थुं परित्रणणाने पामे ? माटे त्हार नख उत्तरवा, दात  
 साफ करवा, मुख साफ राखजु अथवा शरीर धोवु विगेरे सस्कार  
 करवा योग्य नयी ? तो ' तु थु अकामी नयी ? अथवा मदनमिय  
 छे ? ' ए वचनने तु सार्थक न कर. ॥ २३ ॥

आयुष्य तव निद्रयार्द्धमपर चायुस्त्रिभेदादहो,  
 घालत्ये जरया क्रियद्द्वयसनतो यातीति देहिन् वृथा ॥

निश्चित्यात्मनि मोहपाशमधुना सांछद्य द्योधासिना,  
मुक्तिश्रीवनितादशोकरणसधारित्रमाराधय ॥ २४ ॥

शब्दार्थ—हे देहिन् ! त्हासु अर्धु आयुष्य निद्रामां चाल्यु जाय  
छे अने बाकीनुं अर्धु घण मेदयी चाल्यु जाय छे, तें घण मेदमां  
केटलुंक धाल्यावस्थामां, केटलुंक घट्टावस्थामा अने केटलुंक विष  
यादिव्यसनमा फोगट जाय छे, आ प्रमाणे तुं आत्माने विषे निश्रय  
करो हमणा मोधरूप खड्गयी मोहपाशने कापी नाली मुक्ति श्री  
रमणीने वशीकरण एवा उत्तम चारित्रने आराध.

सुचोविंशतिभिश्चतुर्भिरधिकैः सल्लक्षणेनान्वितं,  
ग्रंथ सज्जनचित्तवल्लभमिम श्रीमल्लिपेणोन्तितम् ॥  
श्रुत्वात्मैन्द्रियकुजरान्समदतो रूढंतु ते दुर्लभान्,  
विद्वांसो विषयादरीषु मत्तन मसारविच्छिन्नये ॥ २५ ॥

शब्दार्थ—श्री मल्लिपेण गुरए उत्तम लक्षणवाला चौवीस का-  
व्योवडे फहेला आ सज्जनचित्तवल्लभ नामना ग्रंथने साभलीने  
पूर्व फहेला सत पुरपो ससारनी छेद करवा माटे त्रिपरूप अर-  
प्यमां भटकता एवा दुर्जय इन्द्रियरूप गजोने वश करो. ॥२५॥

॥ इति सज्जनचित्तवल्लभ सपूर्णम् ॥

# श्रीअतरिङ्गपार्श्वनाथमाहात्म्यम्

( संग्राहक अने संशोधक मुनि श्रीशान्तिविजयजी )



प्रणम्यपरमानन्दम्, शान्तिरस निमज्जनम् ।

१स्वानुभूतधमत्कारो, वर्ण्यते सदुपकृते ॥ १ ॥

जम्बूद्वीपभरतस्य, मध्यभूभाग मदनम् ।

पुर सत्यपुरं नाम्नाऽभूदनखंडमदितम् ॥ २ ॥

तत्रोप(श)रालवशेऽभू-द्राजमल्लोऽस्य तु प्रिया ।

मूली नाम्ना भानिराम, पुत्रं सौम्यमजीजनत् ॥ ३ ॥

अन्यदा तत्र नगरे, शमादिशुणसागर ।

विजयदेव आचार्यो, ययो साधुसमन्वितः ॥ ४ ॥

घनागम मयूरीव, तत्रसूरि समागमम् ।

श्रुत्वा मुत्तो(त्त) ययु सर्वे, वदितु श्राद्धथाविका ॥ ५ ॥

यद्य (१) सूरि पदाम्भोजं, चातकेष्विव पक्षिषु ।

आगमामृतपिपापुषूपविष्टेषु तेषु च ॥ ६ ॥

सप्तनयाञ्चतुर्भङ्गात् दुरितदूरिकारणाम् ।

मुधा मुधाकर्षीं सूरिविदधे धर्मदेशनाम् ॥ ७ ॥ युमपः

तद्विरा प्रतिबुद्धोऽहं, दीक्षां जग्राह सोत्सुकः ।

भावविजय इति मे, दीक्षा नाम व्ययाद्गुरुः ॥ ८ ॥



ततश्च गुरुभिः सार्द्धं, विहरन्मरुमडले ।	
अभ्यासयामासाभ्यास, सूत्रादीना यपारुचि	॥ ९ ॥
ततः सतुष्टगुरुभिः, ज्योतिपुराख्यपत्तने ।	
श्रीसंघसमक्षं मयि, गणिपद समर्पितम्	॥ १० ॥
ततश्च श्रीमदाचार्यः, पाटणसघप्रेरितः ।	
अर्घुदाद्रिमभिर्देध, सशिष्यो गुर्जर ययौ	॥ ११ ॥
गच्छन्मार्गमूर्तो श्रीष्मे, नेत्रयार्म रुजाऽभवत् ।	
यथा तथा गुरुभिश्च, सार्द्धं पू पाटण ययौ	॥ १२ ॥
श्रीमन्तः श्रावकास्त्रय, सौपर्धरगदङ्कारैः ।	
विविधोपायनं चक्रुस्तथाऽप्यगाना मे ह्यौ	॥ १३ ॥
दीपहोनगृहमित्र, नेत्रहीनोऽहमन्यदा ।	
विजयदेवमाचार्यं, पृष्ट वॉस्तुदुपायनम्	॥ १४ ॥
ततो मयि कृपा कृत्वा, ददौ सूरेश्वरस्तदा ।	
पद्मावत्या महामत्र, पूर्णविधिविधानतः	॥ १५ ॥
ततश्च श्रीमदाचार्यश्चातुर्मासीं समाप्य च ।	
मुनिना सह मा तत्र, मुत्स्वाऽन्यत्र विनिर्ययौ	॥ १६ ॥
ततो गुरुक्तविधिना, तन्मन्त्राराधिते सुरी ।	
एत्य स्वप्ने सविस्तार, ममाचख्यौ च तद्यथा	॥ १७ ॥
कुर्माङ्गहरिवशस्य, श्रीसुव्रतस्य शासने ।	
चभूव रावणो नाम, प्रतिरिष्णुर्महाबली	॥ १८ ॥

- एकदा स्वस्वसृनाथं, खरदूपणभूपतिम् ।  
 श्रेययामास कस्मैचित् कार्याय सोऽतिसप्वर ॥ १९ ॥  
 सोऽपि पाताललङ्केशी, त्रिमानमधिरुह्य च ।  
 खगः खग इव व्योममार्गेण प्रचचाल च ॥ २० ॥  
 अनेकान्नगरान् देशान्, वनखाडौश्च भूधरान् !  
 समुल्लुभ्याय विंगोलिं, देशमापाऽश्नसणे ॥ २१ ॥  
 सदा चोत्तीर्य सो भूमौ, स्नात्वा पूजनपात्रभृत् ।  
 समानय जिनचैत्य, सूपकारमद्रोऽवदत् ॥ २२ ॥  
 प्रणम्य सभयः प्राह, सूपकारः कृताञ्जलिः ।  
 स्वामिन्याताललकायां, गृहचैत्य तु विस्मृतम् ॥ २३ ॥  
 इति श्रुत्वा महिनायस्तत्रस्थ चालुगोपयम् ।  
 समादाय विनिर्माय, पार्श्वनाथस्य प्रतिमाम् ॥ २४ ॥  
 नमस्कारैर्महामन्त्रैः, प्रतिष्ठाप्य समर्च्य च ।  
 विससज जलरूप, विम्बमाशातनाभयात् ॥ २५ ॥  
 पतन्मानप्रतिमा ता, तत्र कृपस्यदेवता ।  
 गृह्य(धृत्वा)पुण्यपूजामिव, चकार वज्रसन्निभाम् ॥ २६ ॥  
 खरदूपणभूपोऽपि भोज्य भोज्य ततोऽगमत् ।  
 स्वामिनाय विधायाशु, पुनर्लङ्कापुरीं ययौ ॥ २७ ॥  
 तत्प्रभृति बहुकाल, तत्र कृपे स निर्जरः ।  
 पूजयामास तर्द्धिव, भक्त्या भाविजिनोत्तम ॥ २८ ॥

- शास्त्रोक्ताऽऽर्य सार्द्धपंचे विंशदेशान्तर्वर्तिकाः ।  
 वैराटनगरणासी, मत्स्यदेशोऽत्र ७क्ष्यते ॥ २९ ॥  
 स देशो विंगोलिनाम्ना, तदा ख्यात स्तत्र सः ।  
 वैराटश्च ततोऽप्यभूत्, वराडेति तु सामत ॥ ३० ॥  
 तत्राभूच्चन्द्रशीरा, डेरुचपुरपत्तने ।  
 श्रीपालः सच मजाना, नेत्रकैरयचन्द्रमाः ॥ ३१ ॥  
 पितृभ्या कल्पितो नाम, श्रीपाल स्तस्य तारुण्ये ।  
 इल्लवेति कृत लोकै, सम्यगिलां मशासनात् ॥ ३२ ॥  
 एकदा माकूतनैः पापै, कुष्ठरोग भयकर ।  
 मादुरभूत्तनी राज्ञ-होनामूर्च्छ त्मोऽभीक्षणं ॥ ३३ ॥  
 विविधोपधविद्वेषैः, कृतोपायोऽपि भूपति ।  
 नालेभे जातुचिच्छान्ति, उनवाटिजलाशये ॥ ३४ ॥  
 अन्येऽगुरेलचो भूप-स्तया वेदनयाऽऽकुलः ।  
 निरगात्स्वपुराद्वाह्य, रजा निर्गृतिहृतये ॥ ३५ ॥  
 इतस्ततो भ्रमनुराजा, तोयतपासमाकुलः ।  
 यत्र पार्श्वगर्भकूप, ययौ विश्वानरोस्तले ॥ ३६ ॥  
 तत्र कूपे करांश्चास्य, प्रक्षाल्येलापतिस्तदा ।  
 स्वच्छस्वाद्दूषयः पीत्या, पुन स्वशिरिं ययौ ॥ ३७ ॥  
 घर्ममार्गमतिक्रान्ते, श्रातचित्त स भूपति ।  
 सायफालेऽपि सुभ्या (प्या)प, मराह्नि स्वत्रमश्वकै ॥ ३८ ॥

यः सदा समग्ररात्रं, मीनेव फर्फरायकः ।  
 स तस्यांनिष्ठि निश्चिन्तो, लेभे निद्रां यषारुचि, ॥ ३९ ॥  
 प्रातः समुत्थिते राक्षि, निरुत्पाणिपदाननम् ।  
 राक्षो विभोक्ष्य सा राक्षी, पमन्ञ भाणवल्लभ ॥ ४० ॥  
 स्वामिन् ? ह्योऽद्वि कराद्ययास्यं, भवद्भिः कुत्र क्षालितं ।  
 येनैतद्विनष्टुष्टम्, महश्यते ममाधुना ॥ ४१ ॥  
 चलते ! पुनर्युय, सर्वाङ्गम् तत्र क्षालयता ।  
 गमिष्यति भयता वै, तेन तोयेन कुष्टरूम् ॥ ४२ ॥  
 इति राण्या बचो बुद्धो, गत्वा तत्र नृपञ्चः ।  
 सर्वाङ्ग स्नपयामास, पार्श्वभूतेन पायसा ॥ ४३ ॥  
 अनलेन यथा स्पर्णं ततोयेन तथा वपुः ।  
 घभूवतत्क्षण तस्य हीञ्चस्य निरामय ॥ ४४ ॥  
 ततः स सप्ताश्वर्य—सराक्षीलचभूपतिः ।  
 अन्नपान परित्यज्या—रात्रपामास तमुर ॥ ४५ ॥  
 भो कृत्वातर विष्टाव—भोमोऽत्रसेत्रदस्ते ! ।  
 य कोऽपि विष्टनि नो मे, देदि दर्श मङ्गपया ॥ ४६ ॥  
 इत्युदीर्य म्पिने राक्षि, निर्जेगाम त्रिनत्रय ।  
 दृष्ट्वा दृढमणयत, तदा तत्रम्यदेवता ॥ ४७ ॥  
 स्वमान्तर समागत्य, उभाणे त्येञ्चाचिर ।  
 राजन् ! पार्श्वभो विं, विष्टनेऽत्र स्वराऽपित ॥ ४८ ॥

तन्मूर्तिस्पर्शतः एतन्महापूतं पयोऽभवत् ।

तद्वारिभिः स्नपनेन, त्वच्छरीर निरामय ॥ ४९ ॥

तद्विष्वस्पर्शतोयेना-साध्यान्वपि लयति हि ।

श्वासखासञ्चरशूल-कुष्टादीनि न शसय ॥ ५० ॥

नेत्रहीनो लभे भेत्रे, वधिर कर्णगोचर ।

मूक्तो वाचा पदां पद्म-रपस्मारी पुनर्वपु ॥ ५१ ॥

वीर्यहीनो महावीर्य, धनार्यीं द्रविण तथा ।

कान्तार्यीं कान्तकात्वा च, पुत्रार्यीं पुत्रपौत्रकान् ॥ ५२ ॥

गतराज्यो महाराष्ट्र, पदहीनो पदोत्तम (म) ।

जयकाक्षी लभेज्जीत, विद्याहीनः सरस्वतीम् ॥ ५३ ॥

प्रापन्ते भूतवेतालाः ङायिनी शायिनी मुखाः ।

शाम्यन्ति कुग्रहाः सर्वं मूर्तिस्पर्शेन

(स्पृष्टेन) वारिणा ॥ कुरुकम् ॥ ५४ ॥

वर्णे किं बहुभिरस्या, स्पृष्टकार्यं मद्रायिनी ।

चिन्तामणि रिवसाक्षा-दिय मूर्तिः कलौ नृप ! ॥ ५५ ॥

नागराजधरणस्य, सेवकोऽहं स्वयं प्रभोः ।

तदा दिष्ट इह स्थिता, भक्त्या मूर्तिं मुपास्महे (१) ॥ ५६ ॥

आकर्ण्येति त्रिभोर्वर्णैः, भक्तयोल्लसितमानसः ।

तत्प्रत्यक्षचमत्कारी, मूर्तिं स मायित (प्राथितवान्) सुरात् ५७

देवः प्राह श्रुणु राजन्! मार्गिते धनधान्यके ।

दास्येऽहं त्वा यथेष्टं च, परं मूर्तिं कदापि न ॥ ५८ ॥

- एवं नानाविधैर्वर्क्यैः, सुरे सर्वोधिनेऽपि सः ।  
 न व्यधात्पारर्णं राजा, मूर्तिनिघृष्टुमानसः ॥ ५९ ॥  
 गते प्राणेऽपि यास्यामि, नाहमिति दृढाशयः ।  
 भक्तपानं विना तत्र, व्यतिर्यो सप्तवासर ॥ ६० ॥  
 ततस्तपोबलादेत्य, रात्री धरणराट् स्वय ।  
 प्रबोध्य तमित्युवाच, राजन् ! किं त्व हठायसे ॥ ६१ ॥  
 महाचमत्कारिण्यास्या-मूर्त्या पूजा न सेत्स्यति ।  
 युष्मद्भिश्च ततो राजन् ! सिद्धकार्यो गृहं व्रज ॥ ६२ ॥  
 राजोवाच फणिराज ! स्वकुक्षिभरणेन किं ।  
 ततो जगदुपकृते, देहि मूर्तिं मम प्रभो ॥ ६३ ॥  
 विनाऽऽकृतिं न यास्यामि, गते प्राणेऽपि नागराट् ! ।  
 ददातु न ददातु वा मम प्राणस्तु तत्प्रभोः (१) ॥ ६४ ॥  
 इत्याकर्ण्य नागराजः साधर्मिःकृष्णभीतिना ।  
 प्राह तमेलचाधीशं धरणेन्द्रो धरणीधर ॥ ६५ ॥  
 राजन् ! त्वद्भक्तिस्तुष्टो दास्येऽहं प्राणतः प्रिया ।  
 जगदुपकृते नून, मूर्तिमिमां चमत्कृत(ता)म् ॥ ६६ ॥  
 परमस्य प्रभोः राजन् !, मा कार्पीस्त्वमाशातनाः ।  
 अन्यथा चेन्महाकृष्ट, मचेतसि भविष्यति ॥ ६७ ॥  
 ओमिति स्वीकृते राक्षि, प्राह नागो नृप ! श्रुणु ।  
 ममे स्नात्वा स्वच्छाभूय, त्वमेहि कूपनेकटम् ॥ ६८ ॥

विधाय भालशिविका, बध्ना ता सूत्रतनुभिः ।

। तस्मिन् कृपे घट मियो-त्तार्य करावलम्बनात् ॥ ६९ ॥

स्यापयिष्यामि तन्मूर्तिं यानपात्रे ततो नृप ! ।

। धर्दिर्निष्काप्य वर्षाप्य नाडिरथे निवेश्यता ॥ युगम् ॥ ७० ॥

सप्ताहो (हौ) गोजनुवत्सौ, रथे नि योज्य तदग्रतः ।

। त्वया गम्य च त्वत्पृष्ठे मो रथः स्वयमेप्यति ॥ ७१ ॥

नीयता ते यत्र वाञ्छा विम्य पार्श्वपभो रिद ।

॥ दृष्ट्व्य न त्वया पृष्ठे, दृष्टे पृष्ठे न चैप्यति ॥ ७२ ॥

एतत्पचमकालत्वा, ददृष्टो मूर्त्यधिष्ठितः ।

॥ तस्याह पूरयिष्याम्यु-पासकस्य मनोरथे ॥ ७३ ॥

इत्युक्तवा तन्निशाशेषे, नागराजे गते सति ।

। संप्रबुद्ध ममे राजा, तथाचक्रे स तत्क्षणात् ॥ ७४ ॥

बाह्यागताम् प्रतिमाम् ताम्, स्थाप्य भालरथे नृपः ।

॥ तणैकीं द्वौ च सयोज्य, तदग्रिमथचाल सः ॥ ७५ ॥

मार्गं गच्छन्कियद् दूरं, राजा दध्यौ स्ववेतसि ।

। नाकर्ण्यते रथनाद, तत्किं नाथो नागञ्छति ? ॥ ७६ ॥

इतिचिन्त्य (१) वरदृष्ट्या, सेक्षाञ्चक्रे नृपः प्रभुम् ।

। तद्दृष्टिपातमात्रेण, निरगादधस्तादधः ॥ ७७ ॥

तत्र न्यग्रोधवृक्षाधोऽ-नरिक्षे च स्थित विभुं ।

। वीक्ष्य सप्तकरोदग्र-मतरिक्षस्ततो जगु ॥ ७८ ॥

वर्तन्नि सस्यते नाथे, सविपाट्टे नृपैस्तदा ।

१ पुनराराधितो नागः, प्राहारैव स्थास्यत्यसौ ॥ ७९ ॥

इत्याकुर्यं महीनाथ-रत्न चैत्यमकारयत् ।

६ विशाख लक्ष्मद्राङ्गम्, रगमंडपमदित ॥ ८० ॥

परिसमाप्त तर्चेत्य, दृष्ट्वा दायो नृपो हृत् ।

अहो हीदृशचै येन, स्थास्यत्यत्रि ममाभिधा ॥ ८१ ॥

तर्चेत्ये स्थातुमर्हन्तम्, प्रार्थयामास पार्थिव ।

परं नागञ्छति तत्र, नृपऽभिमानकारणात् ॥ ८२ ॥

तत्र खिन्नोऽवनीनाथः, पुन सस्मार भोगिनम् ।

पर नायाति भोगी सा, नृपऽभिमानकारणात् ॥ ८३ ॥

अतिखिन्नस्तदा दीनो, राजा पप्रच्छ मत्रिणम् ।

प्रभुर्नागच्छति चैत्ये, किं कार्यं तदुपायनम् ॥ ८४ ॥

इति श्रुत्वा हृदि चित्त्य (१) जजन्य सचिवस्तदा ।

उपायमेकमस्त्यत्र, दृष्टुत मद्वचः प्रभो । ॥ ८५ ॥

श्रुयतेऽभयदेवाख्यः सर्वशास्त्रविगारः ।

मान्यो बहुषु भूपषु, सूरि सुरीबलावितः ॥ ८६ ॥

गुर्जरदेशि(श्री)यो राजा, फर्ण फर्णववित्रमः ।

स ददौ श्रीमति सूरौ, मल्लारिमहापद ॥ ८७ ॥

सचाचार्यो गनेरर्ष, स्वम्भनमघसत्तमै ।

समं माणिरयदेशर्ष, नत्तुमितः समागतः ॥ ८८ ॥

स त्वय् विद्यते देव ? देवगिर्यभिवेषुर ।

येन कनाप्युपायेन, चेदायातीह साधुभृत् ॥ ८९ ॥



तदा तत्सूरिभिर्नून, युष्मत्कार्यं च सेत्स्यति (ति) ।  
इति श्रुत्वा नृप स्तत्र, सचिवेनाऽऽनितो सुर(रः)म् ॥ ९० ॥

अन्तरिक्षे स्थित विम्बं, दृष्ट्वा सूरिः सविस्मयः ।  
श्रुत्वा नृपवचो नाग, सस्मार ज्युषवासकं ॥ ९१ ॥

आगत्य धरणस्तत्रो-वाच सूरिश्चरमिति ।  
एतच्चैत्य विनिर्माय, राज्ञो हृदि मदोद्भुतम् ॥ ९२ ॥

ततोऽत्र नृपचैत्ये न, स्यास्यति संघमढिते ।  
इति नागरचः श्रुत्वा, श्राद्धसत्रमाकारयत् ॥ ९३ ॥

भो सर्वथावका ! यूयं, मृणुतान्नाशुलाघव ।  
कुरुध्वम् नूतनं चैत्य, तत्र स्यास्यत्यसौ प्रभुः ॥ ९४ ॥

इति सूरिवचः श्रुत्वा, श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः ।  
सूरि संगे गतैः श्राद्धैः, पिलित्वा चैत्यमकारयत् ॥ ९५ ॥

ततः सूरिस्तुत, स्वामो, सुरमकमितः स्वयम् ।  
खादूर्तोयं च तच्चैत्ये, विवेश सर्वज्ञनेक्षितः ॥ ९६ ॥

तत्रापि भूमित सप्ता-हुलोच्चं संस्थित प्रभुम् ।  
प्रतिष्ठाविधिना सूरिः, प्रतिष्ठापितवास्तदा ॥ ९७ ॥

द्विचत्वारिंशदुत्तरै-कादश शत ११४२ विक्रमे ।  
माघसितपचम्यर्कं, मूर्हते विजयागते ॥ ९८ ॥

१ तदा तयेत्सित सूरि-देतत्कार्यं विधास्यति ।

इति श्रुत्वा नृपवचो-नोनयत्सचिवेन तम् ॥ प्र ॥ ९० ॥

२ आकाशात्

- तत्र प्रभोरग्रवामे, भागे नटधिष्ठायक(का)म् ।  
 स्थापित\* तीर्थरक्षार्थं, सूरिः शासनदेवत (ता)म् ॥ ९९ ॥
- तदा च तत्प्रभो भूपो, नानारत्नै\* सुमंडितम् ।  
 न्यस्य मौलौ किरीट च, कुण्डले कर्णयो द्वयोः ॥ १०० ॥
- हीरविशेषकं भाले, दृष्टिममृतवर्षिणीम् ।  
 कण्ठे मुक्ताफलहार-मङ्गे स्वर्णाङ्गरक्षिकाम् ॥ १०१ ॥
- भामण्डलं शिरःपृष्ठे, सूर्यविम्बविडम्बरम् ।  
 शीर्षोपरि सितच्छत्र, मेघादम्बरदम्बरम् ॥ १०२ ॥
- सद्यसिद्धगुधरस्तत्र, गुरुचूर्णशिरोमणिः ।  
 अज्ञानतिमिर इर्तुं, सौचतार निराजनीम् ॥ १०३ ॥
- चतुर्भि\* कुलकम् (कशापकम्)
- ददौ च जिनपूजायै, वासयित्वा पुरंतदा ।  
 श्रीमदासात् श्रीपुराण्यम्, श्रीपुरमेकमेलच ॥ १०४ ॥
- यत्र विनिर्गतो नाथ-स्तरैरे उचभूपतिः ।  
 कुण्ड बन्ध कूपस्य, तत्तोयसर्वोपकृते ॥ १०५ ॥
- तदा तत्र चतुर्मासं, कृत्वा सूरि नृपेरितः ।  
 ततः प्रबोधयन् भव्यान्, विजहार महीतले ॥ १०६ ॥
- ततो भो भारविजय<sup>१</sup>, त्वमपि तत्प्रभु श्रय ।  
 आगमिष्यति ते नून, नयनपुगल पुनः ॥ १०७ ॥

- इति रात्रौ सुरीराचा, श्रुत्वाहं गुरुनान्धवं ।  
 श्राद्धोश्च प्राह तैः सार्द्धं-मन्तरिक्ष ययौ तदा ॥ १०८ ॥
- तत्र सने समस्वानां, चात्रिणा प्रभु दर्शन ।  
 अभूत्परच मे नैत्र, म दभाग्यशिरोमणे ॥ १०९ ॥
- तदा खिन्नोऽन्नपानीय, त्यक्त्याऽह दर्शनोत्सुकः ।  
 नानास्तुत्याऽन्तरिक्ष त, स्तोतु तत्र प्रचक्रमे ॥ ११० ॥
- नमस्तुभ्य जिनेन्द्राय, ब्राहिणेऽपकृतामपि ।  
 कलौ जाग्रतदेवाय, यथेष्टफलदायिने ॥ १११ ॥
- विना स्वार्थमहिं नाथ', कृतो नागेश्वरस्त्वया ।  
 कमठे वैरिणि दत्त, सम्यक्त्वमतिनिष्ठुरे ॥ ११२ ॥
- आपाढभूतिक श्राद्ध, त्वा चिरकालसेविन ।  
 दत्तः स्वामिन् ! त्वया मोक्ष-कारण्यरससागर ! ॥ ११३ ॥
- भक्त्याऽऽलिङ्गनकुर्वन्तम्, गज स्वर्गं ददे त्वया ।  
 ततः कलिकुण्डनाम्ना, त्व प्रथितोऽभयो भुवि ॥ ११४ ॥
- नवाद्भृत्तिर्तुधा-भयदेसगणेशितु' ।  
 वृष्ट हत्वा त्वया नाथ', कृत्र हेमयुतिवपु' ॥ ११५ ॥
- पालनपुरनराधोशः, पालणः परमारु ।  
 भ्रष्टराज्य पुनर्मे, त्वत्पदाम्बुजसेरनात् ॥ ११६ ॥
- उद्देशिथ्रेष्टिनो गेहे, घृतवृद्धिस्त्वया कृता ।  
 ततो घृतकलोलारयो, नाथ ! त्वं भुवि विश्रुतः ॥ ११७ ॥

पुत्रायव फलवस्य (?), वृद्धिस्तत्र स्वया कृता ।

॥ ततः फलवृद्धिः नाम्ना, रयातः क्षोणीतलेऽभव, ॥११८॥

एलचपुर्नरेन्द्रस्य, सदाहकीटकुष्ठिनः ।

कुष्ठदृश्य स्वया नाथ !, कृद्देह (?) स्वर्णसन्निभं ॥ ११९ ॥

अत्राप्यन्तरिक्षे स्थातु-मिच्छाऽभूते कर्त्तुं पर ।

॥ मल्लधारिस्नवतुष्ट, एन्य चैन्ये स्थितोऽसि भोः ! ॥ १२० ॥

एत्र कियद्वर्णयामि, भोऽनन्तरणगर्भित । ।

यदि सहस्रजीह्वोऽपि, पार न तर्थाह पथं ॥ १२१ ॥

ईदृगीदृक् चमत्कार\*, दर्शितो भुवि नाथ ! मे ।

॥ तर्हि किं ? नेत्रयुग्म ते, कठिनमन्त्युद्घाटितु ॥ १२२ ॥

हा नाथ ! तात ! हा स्वामिन् !, हा चामाकुलनन्दन ! ।

॥ हाऽश्वसेनचशदीप !, देहि मत्यक्षार्थेन ॥ १२३ ॥

इष्टरस्तु यदि पुत्र, पित्रो न ददत स्तदा ।

॥ कोऽन्यो दास्यति इ तात !, हा ! हा ! ! नेत्र देहि माम ॥१२४॥

इत्युद्गार कुर्वतो मे, त्रोटयामास हृत्पट ।

॥ जननयारै साद्ध-मद्राक्षं त्रिजगत्पतिम् ॥ १२५ ॥

यथा घनेऽपगतैर्की, पश्यन्ति भाणिनोऽखिना ।

॥ तथाऽह चक्षुःविषया-नद्राक्ष पदार्थान् पुन\* (पुर ) ॥१२६॥

हा नाथ ! सत्योऽसि पार्श्वो, लोह हेमकरो भुवि ।

॥ पार्श्वनाथम्वत. सत्यं, तान ते तान (तात तात) कृत्तोऽभियम् १२७

- ततश्च पारणं कृत्वा, ऽह हर्षोत्फुल्लोचनः ।  
 पुन पुनरन्तरिक्ष, ददर्श दृष्टिदायकम् ॥ १२८ ॥  
 ततो रात्रौ सुसुप्ते मा, एत्याचख्यौ च देवता ।  
 वत्स ! त्वयाऽत्र कार्यं च, लघुवाद् दीर्घमदिर ॥ १२९ ॥  
 प्रतिबुद्धं मभातेऽह, आदान् तत्रोपदिश्य च ।  
 एकप्रार्थं कारयित्वा-ऽऽरम्भयामास मदिर ॥ १३० ॥  
 अन्यसहस्रं विसर्ज्याह, तत्र म्पित्वाऽल्पश्रावकैः ।  
 यावत् वत्सरकालेन, सम्पाप नवमदिः ॥ १३१ ॥  
 तत श्रीमद्विष्णुमान्दे १७७५, चैत्रमितपट्टया रतौ ।  
 मन्त्रवमदिरे नाथ, स्थापयामास सोत्सवं ॥ १३२ ॥  
 तत्रापि सोऽन्तरिक्षोऽहं-घ्न चम्पनं भुव तदा ।  
 स्तुत्यैवाद्गुरुमुच्यं च, नियोजितं कथयन् ॥ १३३ ॥  
 तत्र नाथ प्रतिष्ठाप्य, पूर्वाभिमुखपासने ।  
 योविशोर्न मसु पाद्य, कृतकृत्यस्तदाऽभवत् ॥ १३४ ॥  
 तत्रैव महुरोः पादान्, भक्त्या श्राद्धे निपश्य च ।  
 गुर विजयदेवस्य, गुरुभक्तिपरायणी ॥ १३५ ॥  
 ततोऽपि पतिपयानि, म्पित्वा तत्र दिनानि च ।  
 भयै भावैः परिमाण्य, दक्षदेव फणिश्वरं ॥ १३६ ॥  
 पुनरागमनोत्तमोऽव-स्तवो निर्गन्धोऽस्तवः ।  
 सर्वं तु ( सू ) पयापायाऽ-न्तरिक्षत्रनोपकृती ॥ १३७ ॥

एव मन्योऽपि यो मर्त्य-श्रान्तरिक्ष श्रयिष्यति ।

पु ( पू ) रयिष्यति स तस्य, प्रभु' पुर्णमनोरथ ॥ १३८ ॥

॥ ग्रंथकर्तुः प्रशस्तिः ॥

सप्ततीर्थत्राघ्नपत्र, हीरसूरिरकव्यरात् ।

लेखयित्वा जयं चक्रे, यावच्चन्द्रदिवाकरं ॥ १३९ ॥

तच्छिष्योविजयसेनो, जागिर प्रतिबो य च ।

प्रतिपदि रवौ जोषे, जीरदयामपालयत् ॥ १४० ॥

तच्छिष्यो विजयदेवो, भव्याम्भोजदिवाकरः ।

यवनादी बहुज्ञातौ, दयाधर्मं प्रवर्तित ॥ १४१ ॥

तस्याभूद्दृष्टशिष्य, आचार्यो विजयप्रभः ।

सूरिगुणैरलञ्चक्रे, पादपीठ तदीयकम् ॥ १४२ ॥

लघुस्तु भावविजयो, गणिपदसमन्वितः ।

सोऽहमेवद्ग्रन्थकर्ता राज्ये श्रीविजयप्रभे ॥ १४३ ॥

विक्रमाब्दे १७१५ रचिनवान्, भव्योपकारकाम्यया ।

चरित्र स्वकीयमेत-दन्तरिक्षकृपात्मकम् ॥ १४४ ॥

इति जगद्गुरुरश्रीविजयहीरसूरीश्वरपटधरश्रीविजयमेनसूरिपट-

धरश्रीविजयदेवसूरिशिष्य प. भारविजयगणिविरचितं स्वचरित्रं

संपूर्णं, लिखितं पन्चास श्री उमेदविजयगणेश्वरशिष्येण क्षान्तिवि-

जयमुनिना वराहदेशस्यश्रीभन्तरिक्षपार्श्वपरीत्रितथीपुरनगरे प्रथम-

यात्रावसरे संवत् १९७८ फाल्गुन कृष्णाष्टम्या ॥

ॐ नमः सिद्धम्

—ॐ—

अथ श्री अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ स्तुतिगर्जित श्री  
मद्भावविजयगणि विरचित स्वचरित्रका,  
हिंदि जापान्तर

लेखकः—पन्धासपद विभूषित श्रीमान् उमेदविजयजी गणि  
शिष्य मुनि श्री क्षान्तिविजयजो.

प्रणम्य श्री महावीर, केवलज्ञान भास्करम् ।  
रागद्वेषविजेतार, जातार विश्ववस्तुनः ॥ १ ॥  
स्तुत्या श्रीसद्गुरु भक्त्या, उमेदविजयं गणिम् ।  
यस्याऽभुव प्रसादेन, चालोऽपि सुखरीतरः ॥ २ ॥  
स्मृत्या सरस्वती देवीं, जगज्जाडयविनाशिनीम् ।  
यस्या प्रसादयोगेन, समयजानवानहम् ॥ ३ ॥  
नत्वाऽनुषोणवृद्धेभ्यो, लिखामि देशभाषया ।  
श्री अन्तरिक्षपार्श्वस्य, स्तुतिविवरण मुदा ॥ ४ ॥

अर्थ—केवलज्ञानयुक्त, रागद्वेषद्वु जितनेवाला, सर्वपदार्थकु जा  
ननेवाला, महावीरमशुदु नमस्कार करके, निस्का प्रसादसे चालपणेने  
भी शास्त्रसम्मतभाषा योलेनेकी दुटयाला हुवा पसा श्रीमान् निजगुरु

श्री उमेदविजयगणेशकी भक्तिसँ - स्तुति करके, और जिस्के प्रसादसे मैं गाम्भी ( आगमो ) का ज्ञानवाला हुवा एसी जगतका अज्ञानकु नाश करनेवाली, सरस्वती देवीका स्मरण करके और अनुयोग वृद्धोकुभी नमस्कार करके देशभाषासे ( हिंदीभाषासे ) श्री अन्तरिक्ष पार्श्वनाथकी स्तुति ( महात्म्य ) का विवरण आनन्दसे । मैं ( ज्ञान्तिविजय ) लिखताहूँ. १-४

### श्री पार्श्वनाथायनम

शान्तिरसमय और श्री परमानन्द स्वरूप ( परमात्मा ) को नमस्कार करके अन्य प्राणीभोका उपकारके लिये प्रत्यक्ष अनुभव कीया हुआ चमत्कारको वर्णन करता हूँ. १

यह जम्बूद्वीपका भरतक्षेत्रके मध्य सटवृ शोभानेशाला और अनेक बगीचाओसे मनोहर सत्यपुर नामका (साचोग) नगर था. २

उस नगरमे ओशवालाशमें उत्पन्न हुवा राजमहद्व नामका श्रावक रहता था. उसकी मुली नामकी जोरतने भानिराम नामका सौम्य पुत्रका ( लडकेको ) जन्म दीया. ३

अथवा उस नगरमें शमादि ( ईराभ्यादि ) गुणके समुद्र ( भंडार ) बहोत मृत्तिसरो करके युक्त आचार्यपंडको धारण करनेवाले विजयदेवमूरिजी पत्तार. ४

प्रसादके आनेसे मथुरीकी माफोफ मूरीजीका आगमनको सुनकर सभी श्रावक श्राविकाओ आनन्दसे वन्दन करनेकु गये. ५

चातकपत्नीकी माफोक आगम ( सिद्धांत ) रूप अमृत



( भेषजल ) का पान करनेकी इच्छासें वह लोक आचार्य महाराज का चरनरुमलको वंदन करके बैठे. ६

उम वरुन आचार्य महाराजभी सातनय चतुर्भंगीयुक्त पाप-  
दृष्टादेनेवाली और अमृतसे भी मधुर धर्यदेशना देने लगे. ७

यह सूरिजी महाराजकी मधुर देशना सुनकर मैं प्रतिबोध पाया  
और बड़ा आनन्दमें मैंने उसी गुरुजीके पास दीक्षा ( साधुपणा )  
लीनी. उस दीक्षाके वक्त गुरुजीने मेरा नाम भावविजय एत  
रक्खा. ८

तत्पश्चात् गुरुके संग मरुस्थलमें ( मारवाड देशमें ) विहा  
करते सूत्र, प्रकरण, व्याकरण, माहित्य, ग्रंथचरिषादीका यथाशक्ति  
मैंने अभ्यास कीया. ९

विद्याभ्यासादि गुणोंसें सतृष्ट होकर गुरुजीने जोधपुर नगर  
शीचतुर्बिष मंषके समक्ष मेरेको गणिपद दीया. १०

उस्केबाद आचार्यमहाराज पाटणका श्रीमंषकी विनवीसें आ  
पूरामकी यात्रा करने शिष्योक्त साथ गुजरातमें गये ? ?

राम्नामें चन्ते गरमीकी फलु आगेमें मेरे दोनु नेश्रोमें रोग  
( बिमारी ) होगया तबभी ज्यु न्यु करके अपन गुरुके साथ पाटण  
पदरा. ११

पाटणमें घनादय आरकोष पदुन वैद्योस अरेक औपधीया  
द्वारा ( द्रव्यानुमें ) नागा प्रहारका इज्जत कीया मगर तब भी मेरी  
दोगु भांग ( नेत्र ) बंध हो गई. १२

दीपकहीन घरकी तरद नेबहोन ( अंधकारव्याप्त ) मैंने विन-

यदेवमूरिजीसें उस्ता (नेत्र अच्छा होनेका) इलाज (उपाय) पुच्छा. १४

मेरे पुच्छनेसं आचार्यमहाराजने मेरेपर कृपा करके सपूर्ण विधिविधानयुक्त पद्मावतीका महामंत्र मेरेको दिया. १५

पीछे वहां चातुर्मास पूर्ण करके एक मुनिकी साय मेरेको पाटणमें रखकर आचार्यमहाराजजीए अन्यत्र विहार कीया. १६

उस्के पीछे गुरुमहाराजने दिखलाया हुवा वह मंत्रका विधिके अनुसार आराधन करनेसें देवी पद्मावतीजी प्रत्यक्ष (स्वप्नमें) आके मेरेको विस्तारसें इस तरह कीया. १७

काचवाका (फच्छपका) लच्छनवाला और हरिप्रथमें उत्पन्न हुये ऐसे (वीसमाताथींकर) मुनिमुनतस्वामीके शासनमें महाप्रलशाली रावणनामका प्रतिगामुदेन हुआया १८

वह रावणें कोइएक दिन अपना स्वसृपति (वनोइ) खरदूपण राजाको कोइ कार्यके लीयें वहीत जल्दीसें भेजा. १९

पाताललंकाका मालिक वह खरदूपण नामका ब्रियाधर राजाभी विमानमें बैठके पक्षीकीतरह आकाशमार्गसें चल्या २०

(वहांसे) बहुत नगरो, देशो, वनखडो और पर्वतीको उल्लघन करके भोजनसमये विगोलिदेशमें पहुचा. २१

उसीसमये वहराजा भूमिपर उतरके स्नान करके पूजाके उपकरणो लेकर जिनचैत्य (मूर्ति)को मेरी पास ले आव इसतरह रसोइ बनानेवालेकु कहा २२

उस वखत भयभ्रांत हुवा वह रसोइया हाथको मस्तकके उपर

इ नाथ ! आप फिरभी महा पर्वों और संपूर्ण अंगकों उत्ते  
 षालन करो, वह पानीसे हि आपका कौट रोग जायेगा. ४२

इस तरहका रानीका मानमें प्रतिगीबाला होकर गताने परों  
 त्तर भी पार्श्वसुखे पवीत्र पानीमें गर्रागवा प्रसादन क्रिया. ४३

जैसे अग्निमें वरुणा सुवर्ण शुद्ध ( निर्मल ) होता है ऐसे पर  
 रानीसे उम गजाका शरीर वरुणा निरोगी हुआ. ४४

उत्तम आशय पाया हुआ राणीमहिन इन्चगजा अम पान  
 ( खानापीना ) जोडकर वह देरकी आगपना करने लगा. ४५

हे शूर ( वारही ) के भीतरका अशिष्टता ! हे हे क्षेत्रदेवता !  
 इधर जो कोइ होये वह गृहवा सुजे दसेन देर. ४६

एसा घोल्पर राजा घेठ गया और तिनदिन जानेपर उसको  
 ददनिक्ययात्रा देखकर बहा गया हुआ देर, - ४७

मत्स्य ( स्वप्नमा ) आकर एलगराजामें घोला. इ राजन् !  
 इधर ( यह रूपमें ) खरदूपणराजाका रखवा हुआ पार्श्वसुखा विव  
 ( मूर्ति ) विद्यमान है. ४८

वह मूर्तिका स्पर्शमें यह पानी महा पवीत्र हुआ है उम पानीसे  
 स्नान करनेसे तेरा शरीर निरोगी हुआ है. ४९

यह प्रतिमाका स्पर्शबाला पानीमें स्नात, खासी, (खोकटा)  
 ज्वर ( बुखार ) शूल और दृष्ट बगैरह असाध्य रोगोभी निक्षे  
 विनाश होता है-उसमें सदेह नहीं है. ५०

औरभी वह मूर्तिसे स्पर्श हुआ पानीमें अंधा पुरुष नेधोको  
 ( पात्राई ) धधिर कर्णरिपयको, मूरु मनुष्य, रागीको, पशु आदमी

पेगोको, अपस्मार व्याधितें पीडित उस-रोगरहित शरीरको पराक्रमहीन महापराक्रमको और धनका अर्थी धनको सुदर स्त्रीका अर्थी सुन्दर स्त्रीको, पुत्रका अर्थी पुत्र और पौत्रको, राज्यसे भ्रष्ट हुवा महाराज्यको, पदसे भ्रष्ट हुवा उत्तम पदको, जयकी इच्छावाला जयकों, विप्राहीन, सरस्वतीको, पाता है तथा भूत-वैताल-टाकिनी शाकिनी ममूख भाग जाने है और सब कुप्रहो भी शान्त होते है. ५१ से ५४

हे राजन्! यह मूर्तिका ज्यादा वर्णन करनेसे क्या! इस कलि-युगमें यह मूर्ति चित्रामणिरत्नक माफिक प्रत्यक्ष अना इष्टकार्यको सिद्ध करने वाली है. ५५

नागराज धरणेंद्रका में सेवक (देव) हु और उसका दुरुपसे इहा रहकर भक्तिसे में आप भगवानकी मूर्तिकु पूजता हु. ५६

इसतरह प्रभुका महात्म्यकु सुनकर भक्तिसे उद्भसित मनवाला राजाने वह देवके पास, प्रत्यक्ष चमत्कारिणी मूर्तिकी याचना कीया. ५७

तब देव बोल्या. हे राजन्! तुण धन्यग्रान्यादि जो कुच्छ तु मागेगा वह तेरी इच्छानुसार तेरेको में देउगा. लेकिन मूर्ति कभीभी नही देउ. ५८

एसे अनेक प्रकारके वचनोसे देवने बहुत समजाया, लेकिन मूर्तिको गृहण करनेकी इच्छावाला वह राजाए पारणा नही कीया. ५९

चाने माण जाय तबभी (मूर्तिविना) नहिजाना एसा दृढ नि-श्रयवाला राजाने वहा अन्नपाणी न्येयागिना सातदिन निकाठा. ६०

उस तपका बलसें सुद वरुणेंद्र रानीमें (स्वप्नमें) आकर उस-  
कु जाग्रत करके इस तरह कहा, हे राजन्! तूं कायके वास्ते इठ  
करता है, ६१

महा चमत्कारिणी इस मूर्तिकी सेवा तुमेसें नहि हो सकेगी  
और तरातो कार्य सिद्ध हुवाहै इसलीये हे राजन्, तु अपने घरकुं  
चलाजा, ६२

तब राजा बोला, हे फणिराज! अपना पेट भरनेसें क्या!  
अतएव जगतका उपकारके लीये प्रभुकी मूर्ति मेरेकु देनी चाहीए, ६३

हे नागराज! मेरा प्राण जाये तबभो मूर्ति लीयेपिना में नहि  
जाउगा, चाहे दीं अथवा मतदीं मेरा प्राण वह प्रभुमेही है, ६४

एसा सुनकर साधर्मिको दु ख होवेगा एसा भयसें वह एलच  
पुरका मालिक राजाकु नागराज घरणेंद्रि इस तरह कहा, ६५

हे राजन्! तेरी भक्तिसें सतुष्ट हुआ, में प्राणसेभी बल्लभ और  
महा चमत्कारिणी यह मूर्ति दुनीयाका उपकारके लीये तेरेकु  
देउगा, ६६

लेकिन हे राजन्! तेरेकु यह प्रभुकी आशातना करना नहि,  
यदि आशातना करेगा तो मेरा मनमें बडा भारी दु.ख होवेगा ६७

में आशातना नहि करंगा एसा राजाने कबुल करनेमें नाग-  
राज बोला हे राजन्! सुन, प्रातःकालमें स्नान करके स्वच्छ होकर  
तेरेकु कूपके नजीक आना, ६८

और नाल (जिवारीकें डाढा)की पालखी धनाकर उस्कूं सूतका

तबसे पाषाणकर मूर्तिकुं हाथमें पकड़के घटकी तरह उस कूबेमें उतारना. ६९

उस पालखीमें मूर्तिकुं में स्थापन करुगा, पीछे बहार निकालके बधाकर नाडि (डांठा) का रथमें स्थापन करना. ७०

पीछे सातदिनके गौले दो घाच्छडे रथमें जोड़कर वह रथकी आगे आगे चलना, और तेरी पीछे पीछे वह रथ आपसे आप चला आयगा. ७१

इस तरह जहां तेरी इच्छा होय तहातक पार्श्व प्रभुकी मूर्तिकुं लेजाना, लेकिन रस्तेमें पीछा देखना नही. यदि पीछे देखेगा तो, प्रभु नही आयेगा. ७२

यह पंचमकाल होनेसे में मूर्तिमें अधिष्ठित होकर अदृष्टनया (पणे) मूर्तिकुं उपासना करनेवालाका मनोरथ पूर्ण करुगा. ७३

इस तरह बोलके पीछली रात्रीमें नागराज चला गया, पीछे प्रातःकालमें जाग्रत होके राजाने उसी वखत नागराजका कथनके अनुसार सप कीया. ७४

पीछे बाहिर आइ हुई मूर्तिकुं नाल (जवारीका डांठे) का, रथमें स्थापन करके और सातदिनके दो घाच्छडेकु रथमें जोड़के रथके आगे राजा चल्या. ७५

कितनेक दूर मार्गमें जाते राजा मनमें विचारनेलगा कि रथका अवाज सुननेमें नही आताहै तब क्या ! प्रभु नही आताहै ? ७६

एसा विचारके राजाने प्रभुके सन्मुख वक्र दृष्टिसे देखा, जब

प्रभुकेँ उपर उसका दृष्टिपात हुआ उसी वखन प्रभुकी नीचेसेँ रथ निकल गया. ७७

वहा वददृक्षकी नीचे जमीनसेँ सात हाय उचा अन्तरिक्ष (आकाश) में रहे हूवे प्रभुकु देखकेँ उसवखनसेँ ( लोकी ) अन्तरिक्ष (पार्श्वनाथ इस तरह) कहनेँ लगे, ७८

भगवान् मार्गमेंज रहनेसेँ रोदित हूवे, राजा राणी मत्रि प्रमुखसे आराधित धरणेन्द्रने कहा कि भगवान् इवरज रहेगा. ७९

ए चातकु सुनकर राजाने बडा विशाल रगमढवसेँ सोभित लक्षमुद्रा नामक मंदिर वहाही तैयार कराया. ८०

वह मंदिर सपूर्ण हूवा देखकर ( राजाको अभिमान आनेमें- विचारने लगा कि अहो एसा मंदिरस मेरा नाम बहोत कालतक रहेगा. ८१

वह मंदिरमें बैठनेके लीयेँ भगवानको राजानेँ प्रार्थना किया, लेकिन राजाको अभिमान हानेसेँ भगवान् न देरनेँ नद' आने है. ८२

उससे रोदित होकर राजाने फिर धरणेन्द्रको बोलाया परतु वह धरणेन्द्रभी राजाका अभिमानका कारनसेँहि आया नहि. ८३

तब अतिरोदित और बहुत दुःखी होकर राजाने मत्रिसेँ पुच्छा कि प्रभु मंदिरमें आते नही है क्या उपाय किया जाव? ८४

ए वचन सुनकर हृदयमें सोचकर मत्री बोला ह स्वामिन् ! इसकार्यमें एक उपाय है सो मेरा वचन आप सुनें. ८५

सर्वे शास्त्रोंमें विशारद ( विद्वान् ), और बहुत राजाओंमें ननिक, एसा अभयदेव नामका आचार्य है

और गुर्जर देशका मालिक, कर्णक समान पराक्रमी कर्णराजा  
ने वह आचार्यको 'मङ्गारि' एसा महानुद्द दीया है. ८७

वह आचार्य गतवर्षमें स्तम्भनपुर ( रंभान ) का उत्तम संतके  
साथ माणिक्यदेव ( कुरुपाकजी ) की यात्रा करनेहु उतर आये है. ८८

यह आचार्य अभी देवगिरि नामका नगरमें विराजते है. हे स्वामिन्!  
यदि कोईभी उपायम साधुके सहित वह आचार्य इहा आवे. ८९

तब वह आचार्य आपका यह इष्ट कार्य जरूर करेगा एसा सु-  
नके राजाने मंत्रिओ भैजरर यह आचार्यको वहा बोलाया ९०

आकाशमें रद हुये प्रभुके देवके वहा आश्रय पाया हुआ. आचा-  
र्यने राजामें सब पूरकी वकीमत सुनकर तेला ( तीन उपवास )  
परके धरणेद्रको याद कीया. ९१

उस वरान धरणेद्र वहा जाकर आश्रय महाराजमें कहा कि  
यह मन्दिर बरारर राजाने अपने मनमें वहा मठ ( अभिमान  
कीया है ९२

उमके लीये यह राजाका मन्दिरमें ( भगवान ) नहि विराजेंगे  
लेकिन, मरका बराया हुआ मन्दिरमें ( भगवान् ) बैठेगा, इस प्रकार-  
रका धरणेद्रका वचन सुनकर सुरिजीने श्रावक सबहु एफन परके  
कहा. ९३

भो. सब श्रावको! सु

तुम लोक तैयार कराओ, उसमें भगवान बैठेगा. ९४

एसा सुरिजीका वचन सुनकर, सुरिजीके सग जाये हुये श्रद्धा

क्तियुक्त श्रावकोन मिलकर नवीन मन्दिर तैयार कराया. ९५



कें दिन वह नया मंदिरमें उत्सवके साथ भगवानको स्थापन कीया. १३२

वहापरभी वह अन्तरिक्ष अरिहंतनें जमीनको स्पर्श नही कीया, लेकिन वही मुशकैलीसें, स्तुति-प्रार्थना करके जमीनसें एक अंगुल उचें स्थापन कीया. १३३

उस वखत वह मंदिरमें पूर्ण सन्मुख आसनपर प्रभुकु स्थापन करके और ( निर्माळ ) सम्पत्तकु उपार्जन करके और वहीज मंदिरमें मेरा गुरु श्री विजयदेवसूरि जाके चरण पादुका को गुरु सेवा परायण श्रावकोद्वारा भक्तिसें स्थापन करा क में कृत कृत्य हुवा. १३४-१३५

उस्के पीछेभी कितनेरु दिन वहा रहकर, देवाधिदेव पार्श्वनाथको त्रेष्टभाससें वारवार, भेटके, १३६

इधर पीछे पीछा आनेमें उत्सुक बनकर, मं वहास निकलरुके रास्ता में इधर उधर सब जगे लोकोका उपकारके लीये अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ ( का महात्म्य ) की सूचना किनी. १३७

इस प्रकार दुसरा कोइभी आदमी अन्तरिक्ष पार्श्वनाथजीका आश्रय करेगा उसकाभी मनोरथ वह प्रभु पूर्ण करेगा. १३८

### अथकारकी प्रशस्ति

जगद्गुरु श्री विजयहीरमूरीश्वरजीनें अकबरबादशाहसें सात तीर्थके ताम्रपत्र लिखारर याचतुर्वेद्रदिवाकर जय कीया. १३९

उनके शिष्य श्री विजयसेनमूरिजीनें जहागीर बादशाहको प्रतिघोध देकर प्रतिपदा रविवार और गुरुवारकु जीवदया पलाइ १४०

उनके शिष्य भव्यप्राणीयोरूप कमलोको विक्रस्वर करनेमें  
सूर्यके समान श्री विजयदेन्द्र सूरिजीने यचनादि बहुत ज्ञातियोंमें  
दयावर्ष केल्या। १४१

उनका बड़ा शिष्य विजयप्रभसूरिजी हुआ। यह सूरिगुणोंसे  
विभूषित उनका ( गुरुका ) पाद पोटका शोभाता था। १४२

और उनकाहि छोटाशिष्य गणपदस अलकृत भागविजय,  
नामका विजयप्रभसूरिजीके राज्यमें हुआ सो में यह ग्रथका कर्ता  
हु। १४३

विक्रम संवत् १७१५ की सालमें भव्य जीवोका उपकारकी  
इच्छासे अन्तरिक्षपार्श्वनाथकी कृपा स्वरूप मेरा चरित्र लेने  
रचा। १४४

इति जगद्गुरु श्री विजयहीरसूरिश्वर पट्यर श्रीविजयमेनसूरि  
पट्यर श्री विजयदेससूरि शिष्य प. भागविजयगणि प्रिचित श्री  
अन्तरिक्ष पार्श्वनाथ कृपात्मक स्वचरित्र सपूर्ण लिखित पन्थास  
श्री समन्विजय गणीश्वर शिष्येण ज्ञान्तिभिन्नय मुनिना वराह देश-  
स्य श्री अन्तरिक्षपार्श्वनाथ पवित्रीत श्रीपुरनगरें.

प्रथम यात्राया संवत् १९७८ फाल्गुन कृष्णाष्टम्या मूठे लिखित  
द्वितीय यात्रायां संवत् १९७८ ज्येष्ठ कृष्णदशम्या देशभाषया लिखित.

मंगल भगवान् चीरो-मंगलं गीतम प्रभुः ॥

मंगले स्थूयमद्रायाः, जैनधर्मास्तु मंगल ॥ १ ॥

# श्री वकचूलियासूत्र-सारांश.

लेखक-मुनि खान्तिविजयजी



भक्तिभर नमिष सुरवर सिरि, सैहर किरण रइय ससिसरिय ।  
नमिउ सिरिवीरपयं, युच्छ सुयहीलणुपपत्ति ॥ १ ॥

भक्तिना समुहे करी नमेला देवेंद्रोना श्रेष्ठ मुगटनी फान्तिनी  
रचनाथी शोभायमान श्रीवीर प्रभुना चरणने नमिने श्रुतहेलनानी  
उत्पत्ति कहीश. श्रीवीर प्रभुना निर्वाणथी वीस (२०) वरसें श्री  
सुधर्मस्वामिनु निर्वाण थपु त्यारवाद चुमालिस (४४) वरसें चरम  
(छेछा) केवली (केवलज्ञानी) श्री जवूस्वामी सिद्धि पाम्या । त्यार  
वाद इग्यार (११) वरसें श्री प्रभवसूरि स्वर्गे गया, त्यार वाद  
त्रेवीस (२३) वरसें स्वयंभवसूरि स्वर्गे गया । त्यारपछी श्री स्वयं-  
भवसूरिना शिष्य अने आगमना पेता श्री यशोभद्रसूरिजी पृथ्वीमां  
विहार करता सावथी नगरीना कोष्टक नामा उद्यानमा समोसया ।  
ते वखते द्वादशांगीना घरणहार श्री भद्रबाहुस्वामी अने सभूतिवि-  
जयजी ए पे शिष्यो सदा तेमनी पासै रहता नित्य गुरु श्रुधुपा-सेवा  
करे छे । आ अवसरे अमिदचनामा श्री भद्रबाहुस्वामीना शिष्य  
मिथिला नगरीए लक्ष्मीक नामना उद्यानने त्रिपे प्रतिमाए (काउस-  
गध्याने) रखाछता तप आचरे छे-करे छे । ते समये मद्य ( दाह-

मदिरा) अने मांसना आहारयी परवश थयेला तथा कामलता नामे गणिकाने विषे आसक्त थयेला बावीस (२२) गोठील पुरुषो (मित्रो) भेगा थइने ते उग्रानमां सदाकाल विचरे छे-फरे छे (भव ?) । त्या प्रतिमाए रहेल अग्निदत्त मुनिने देखीने, मदांध दयारहित महापापी ते बावीस पुरुषो अति तीक्ष्ण शस्त्रो हाथमां छेइ समकाले साधुने हणया दोडया । दोडता वचमा रहेल अध-कूपमां समकाले सर्वे पुरुषो पड्या, अने माहोमाहे शस्त्रे हणाया छता मरणने शरण थया. ते देखी कृपालु मुनि विचार करवा लाग्या । हा हा रोदनी वात छे के ए विचारा रांरुडा मनुष्यपणु पाम्या छता जिनधर्मयो वचिन रही अकाले जीवितव्यथी रहित थइ क्या उप-ष्या ह्यो ते ज्ञानो जाणे । इम चिंतवी कावसग पारीने अग्निदत्त मुनि त्यांयी चाल्या, अने ज्या गुरुना गुरु ( यशोभद्रसूरि ) छे, त्यां आवी इर्याही पढिक्कमिने-गमणागमणे आलोइने । गुरुमहा-राज मृत्ये वदन करे-याने प्रथम श्री यशोभद्रसूरिजीने वांदी पछी श्री मद्रबाहुस्वामी तथा श्री सभूतिविजयसूरिने नमस्कार करीने पछी गुरुमहाराज श्री यशोभद्रसूरिजीनी आगल हाथ जोडीने प्रश्न करे-पुच्छे । अथ प्रश्न- भगवन् ! ते महा अधर्मि बावीस गोठिल पुरुषो अकाले मरण पामी क्या उत्पन्न थया. अथवा कर्मरसें कइ योनिमड्डमां परिभ्रमण करस्ये तथा ते बावीस पुरुषो शुं ? सुलभ बोधि छे अथवा दुर्लभबोधि थास्ये ए प्रश्ननो मारो संसय कृपा करी निरारो. त्यारे तुगियायण गोश्रवाला प्रणजानयुक्त तथा दृष्टि-वादे भावित अन्तःकरणवाला ते यशोभद्रगुरु श्रुतज्ञाननो उपयोग

देहने-ते बावीस गोठिल पुरुषो कर्मयोगे क्यां उपन्या तथा कई  
 योनिमंडलने विषे परिभ्रमण करस्ये तथा दुलभरोधि यस्ये एतु  
 जोइने-निश्चय करीने अग्निदत्तनामा शिष्यने-आ प्रमाणे कहे-हे  
 अग्निदत्त ! ते गोठिल पुरुषो तमने मारवा आवता हता ते पोते पो  
 तानी मेलेज मद्य मांसने परवशपणे अधकृपमां पढ्या अने मांहोमांहे  
 तीक्ष्ण शस्त्रोयी अगोपांग छेदायायी आतै तथा रौद्रध्यान व्यास  
 तथा बारवार कामलता गणिकाने इच्छता सुकृतनी क्षय थवायी  
 अन्तर्मुहुर्त्तमात्रमां तेवा अध्यवसाये करीने ते कामलता गणिकाना  
 दक्षिण ( जमणा ) स्तननी घोटडोमां क्रमिनीयोनिमा ( क्रमिपणे )  
 उत्पन्न यया, ( भव-२ ) तयारवाद हे अग्निदत्त ! कामलता गणिका-  
 नी नानी घेटडीए ते गोठिल पुरुषो क्रमिपणे सक्रम्यायी अतुल-असद्य  
 स्तननी घेदना उत्पन्न थइ ते घेदनायी पीढा पामती कामलता ग-  
 णिका अनेक विद्वान वैद्योने स्तन देखाडती घणा मत्र तत्र औपध  
 औपज्ये उपचार करावती-औपध करती रिचरे तयारे हे अग्निदत्त मुने !  
 एक विद्वान् वैद्ये तेनो उपाय जाणी शस्त्रक्रियाये करी स्तनने त्रिदा-  
 रीने-चिरीने तेमा बावीस क्रमि-फीडा-चेद्रिय जीव हाड-मास  
 रुधिरवद्ध हता तेमने काढी-छुटा पाढी पाणी भरेला भाजनमां  
 मुक्तिने कामलताने देखाडे तथा स्तनना मास चर्मने सूत्रयी ( दोराथं )  
 सांधे अने संरोहिणी औपधिये समाधि पमाडे. तयारे हे अग्निदत्त ! ते  
 बावीस फिडा स्तनमाथी काढथे छते, कामलता गणिका समाधि पामी  
 तेथी ते वैद्यने घणा असन-पान-खादिम-स्वादिम-बस्त्र-मात्स्य-अलंकार  
 विगैर जीये त्या सुधी पहोचे तेदळे मीतिदान देइने रुशी करीने

विसर्जन करे—जबानी रजा आपे. त्पारवाद ते क्रमि-कीडाभोर्मा  
 पूर्वना वधायेल रागयी ते कामलता करुणायै चिंतये ए जीवोर्नुं  
 मरण पारा हाययी मा थाओ एम रिचारीने ते कीडाओने लड्ने  
 मिथिला नगरीनी खाइमा पडेल शुक्र शोणितवाली जमीनमा मुक्के  
 त्या ते वावीस कीडा ताप-भूख-तृपायी पराभव पामता अन्तर्मुहुर्त  
 पृथग्त्ये ( रेयीनव ) काठ करीने त्यांयो हे अग्निदत्त ? ते वावीस  
 जीवो साधारण वनस्पतिमा कटमूलनी जातिमा एकेंद्रियपणे उ-  
 त्पन्न थस्ये ( भव ३ ) ते काले पृथ्वीवर्णनां दुख पामता ते वावीस  
 क्रमि जीवो पृथ्वी १ पाणी २ अग्नि ३ वायु ४ वनस्पति ५ ए  
 पाच स्थावरने रिपे जपन्य मध्यम आडखे उपजस्ये [ भव १३ ]  
 त्पार पडी हे अग्निदत्त ! ते वावीस क्रमिजीवनो तेजकामतता गणि  
 काना उदरमां गडोलापणे उपति थस्ये [ भव १४ ] त्या चिकि-  
 त्सके—रैरे रेच आपी गुग्गुद्वारा रिष्टायी खयढायेला जगजाला ते  
 वावीसे काढया पडी अतर्मुहुर्तमा मरीने ते विष्टामांज वेडद्रियपणे  
 उत्पन्न थस्ये [ भव १५ ] त्यांयो वली अन्तर्मुहुर्तमा मरीने ते वा-  
 वीसे तेडद्रियपणे उत्पन्न थइ [ भव १६ ] मरण पामी तेदज विष्टामां  
 चउरिद्रियपणे उपजशे [ भ. २ श्लेष ( भ. २ ) शरीरनो मेल  
 ( भ. २ ) नासिकानो मेल ( २ ) उमन ( भ. २ ) अने पीतमां  
 ( भा. २ ) सातवार ( ए सात ठेकाणे ) पाप कर्मना योगयो वि-  
 गलेंद्रियपणे ( जपन्य-मध्यम आडखे ) अनुरूपे उपजस्ये एष  
 ओगणतीस ( २९ ) भवनी वक्त यना थइ त्पारपडी ह  
 ते वावीस गोठीछुपुपना जीवो विसमा ( १० ) भवमा ते

साचकवाना स्थानक ( खाल-मोरी ) नी अधुचीमां संमुच्छिम  
 देडकापणे उपजस्ये त्या दिनपृथक्त्व ( २ थी ९ दिवस ) नु आ-  
 युष्य पुरु करीने एकत्रीसभेभवे (३१) कामलवाना घर्मां गर्भं ज  
 उंदरपणे उपजस्ये त्या मास पृथक्त्वनु आयुष्य भोगवीने वत्रीसभे  
 भवे (३२) ते कामलता गणिमाना घरे दरवाजा पासे सुकर ( डु-  
 कर-भुड ) पणे उपजस्ये त्या अज्ञानना अनुभवरूप फलने वेदस्ये  
 त्या क्रूर रुद्रपरिणामी पुष्ट स्कंभ्रला कामाध ते बावीस सुकर  
 दाढावलयो विवाह करता कादव तथा विष्टाधो शरीरने विपत्ता  
 तथा तेनाथीज ( कादव-विष्टायोज ) आहारनो वृत्ति करता परस्पर  
 भयकर स्वरथी गर्जना करता घगा माण भूत-जोव सचवने मर्दा  
 ( उग्रद्रव ) करता पोताना आत्माने आनन्द माना र्पे पृथक्त्वनु  
 आयुष्य भोगविने त्यायो काल करीने ते बावीस जीयो तेत्रीसभे (३३)  
 भवे अवतो देशने विषे चडालना कुलमा उपजस्ये ( अनुक्रमे ) वृद्धि  
 पामता ते बावीस चडालो हुडक सस्थानशाला लागा टानवाला  
 मोटा पेटवाला गळीना रग सहश ( काला ) नहि देखवा लायक  
 लोकोने घगी दुगच्छा उपजावता पापकार्यमा डाह्या ( हूशोयार-  
 निपुण ) यशे ते गरीसे चडालकर्ममा कुशळ अने विज्ञानगुणयुक्त  
 होवाथी पापकर्मडे घणो द्रव्य समूह एकठो करस्ये तथा ते द्रव्यथी  
 आजोविका करता-ने द्रव्यने भोगवता विचरस्ये ते अवसरे हे अ-  
 म्निदत्त ! ते कामलता गणिका वृद्ध यवाथी घणु द्रव्य याचकोने  
 भिक्षाचरोने आपीने पोताना स्वजनठोकने पुछिने परिव्राजक  
 धर्ममा आदरवाली-मिथिला नगरीथी निकले, निकलीने काशीदेश

મયે ગગા નગીને કોનારે રહેલો પરિવ્રાજિકાઓની પાસે આવીને  
 સૌંચ મૂલ પરિવ્રાજિકાનો ધર્મ પામીને—ગ્રહણ કરીને, પાલ્લી ત્રિચ-  
 રસ્યે ! ત્યારે તે કામલતા ગણિત શુદ્ધ પરિવ્રાજિકા યસ્યે ! અન્યદા  
 પ્રસ્તાવે તે કામલતા પરિવ્રાજિકા સર્વ તોર્યને નમસ્કાર કરવાને  
 માટે પોતાની ગુરુગીને પુઢીને કાશી દેશથી નિકલોને ગાહારના  
 દેગોમા વિદ્યાર કર્ણી તોર્યને નમસ્કાર કરતી ડતી અગ્ની દેશમાં  
 સીમા નદીના તટને ચિપે અનેક પરિવ્રાજિકાઓથી પરિવરી ગેહ્યી  
 'રગલા પ્રગાન વસ્યોથી અલકૃત તથા ત્રિદઢ કુઢિ (કમઢલુ) સ્વપર અકૃમ  
 અક્ષમા ગ્રાથી પવોત્ર હાપવાલી થઈને ત્રિચરસ્યે ત્યારે તે કામલતા પ-  
 રિવ્રાજિકાને સીમા નગીને કિનાર આરી જાણીને અવતી દેશવાસી  
 અનેક શ્રેષ્ઠિ સેનાપિયતિ પ્રગાન ત્રિગેરે પ્રગા ઉત્તમ મન્યમ પુસ્પો તથા  
 સ્ત્રીયો શીઘ્ર ઢર્શનાર્યે આવસ્યે ત્યા તે ગાવોસ ચઢાઢ પુરુપો પળ તે  
 પરિવ્રાજિકાના ઢર્શન માટે આવમ્યે ત્યારે કામલતા પરિવ્રાજિકા તે  
 શ્રેષ્ઠિ ત્રિગેરેની આગલ સૌંચ મૂલ પરિવ્રાજિકાનો ધર્મ કહેસ્યે, હે લોકો  
 અમ્હ સૌંચ મૂલ ધર્મ પરુપીયે છોયે, તે સૌંચ ચે પ્રકારનો છે તે આ  
 પ્રમાણે ઢ્રવ્ય સૌંચ \* અને માર સૌંચ > ઢ્રવ્યથી પાળી અને માટોયે  
 કરીને મારથી ઢામાદિ અને મત્રે કરીને, જો અમને કાઢપળ અશુચિ  
 ધાય તો અમ્હે સર્વ માટીનો લેપ કરી શુદ્ધ પાળીથી પ્રક્ષાલન કરીયે  
 ષ્ટઢે પવોત્ર થયે એમ નિશ્ચે જે માળીમો જગામિપેક કરે તે મા-  
 ણીઓ પરમપદ પામે, ત્યારે તે ગાવોસ ચઢાઢ પુરુપો, કામલતા  
 પરિવ્રાજી કાપે ઘઢેલ, સૌંચ મૂઢ ધર્મને સાંમલ્લીને હર્ષ સંતોષ પા-



मीने ते धर्मने सदृढता ते धर्म उपर रूचि करता. कामन्त्रता परिग्रह-  
जिकाने त्रण मदक्षिणा देडने तेनी पासे सौच धर्म स्वीकारस्ये, पछी  
फरीधी यण मणाम करीते पोताने घरे जस्ये, अने ते बावीसे चडा  
लो परित्राजक धर्मना परमभक्त यस्ये त्यार वाद मिध्यादर्शनने  
धारण करनारा अन्यधर्मना प्रत्यनीक-निद्रक ते बावीसे चडाल  
पुरपो शेष पाच दर्शन तथा विशेषे करी जैन दर्शनना पालक साधु  
श्रावक तथा जिनेश्वरना चैत्यना अवर्णवाद बोलनारा अने निंदा  
करनारा यस्ये, त्यारवाद परित्राजक धर्मना रागी ते त्रासि चडालीं  
जिन धर्मनो अत्रणवाद उचारता-बोलता छता लोकोना निमत्र-  
णधी भातपाणीने ग्रहण करी इच्छा प्रमाणे आहार करता मरणने  
अणवांच्छता पाच वर्ष सुधी पत्रित्राजकना धर्मने परम भक्तिधी  
आराधना अन्यदा आयुष्य क्षय करीने चोत्रीशमे भये त्या अत्रती  
देशमाज भाडना कुलने विणे उत्पन्न यस्ये [३४] त्यार वाद अनु-  
क्रमे ते बावीस भाडो वृद्धि पामस्ये त्यारे भयकर दुष्ट रीद्र साहसीक  
अने विकृत्चारी यस्ये अने अनेक श्रेष्ठि तेनाधिपति अमात्य  
नरपतिओनी आगल भाड चेष्टाने विस्तारता करता विचरस्ये, अ-  
न्यदा कुशस्यल नगरमा ब्रह्मद्वीप राजानी आगल भाडोमाहे विड-  
वना करता माहोमाहे दासपणानी-हलकी-क्रिडा करता दुष्ट चेष्टा  
देखाडता ते बावीस भाडो, अठम (तेळा)ने पारणे गोचरीने अव-  
सरे गोचरीये विचरता एक साधुना शुगल (जोडलाने वे साधुने )  
ने देखस्ये, ते समये त्या वेठेल एक दुष्ट पुरोहिते प्रेर्या ते बावीस  
भाड पुरुपो कलकल शब्द करता ते साधुना तरफ दोडस्ये, ते साधु

युगलने सेंघट करस्ये, परिताप पमाढस्ये, किलामणा पमाढस्ये, उप-  
 द्रव उपजावस्ये, हिलना करस्ये, खिसणा करस्ये, निंदा करस्ये,  
 गरहणा करस्ये, अने ते पुरोहित प्रमुखने घणी हासी उत्पन्न करस्ये,  
 तोपण ते साधु युगलने मौनपणे रहेल देखीने ते ( चावीस भाडो )  
 पोतानी मेळे शान्त थइ, खेद पामी दुष्ट चेष्टा वध करी मार्दव गुणने  
 स्वीकारता भहो आ मुनिओने क्षुधा लागी हस्ये. एम विचारिने  
 मुनिओने विसर्जन करस्ये. ( जत्रा देखे ) त्यार बाद ह अग्निदत्त !  
 ते चावीस भाड पुरपो अकाले विजली पडवायी अकस्मात् बली-  
 भम्म थइ, योडापण मार्दवगुणे वर्तता होवायी पात्रीसमे ( ३५ )  
 भये मय देशमा जुदा जुदा कुलने विषे चडद विद्याना पारगामी  
 द्विज ( ब्राह्मण ) थस्ये, ते चावीस विप्रो धारापुर नगरमा यज्ञदत्त  
 ब्राह्मणना निमंत्रणथी तेने घरे यज्ञमडपमा रही, द्वार वध करीने  
 धनेरु द्रव्यो साथे घीनो होम करता छता, तीव्र अग्निथी दाज्या  
 छता तृपाथी पीडाता कठसोप पामता आर्तप्याने मरी सीमा  
 नदीना धरामा मत्स्यो थस्ये, एम जलचर माहे सात भव करस्ये  
 ( ४२ ) त्यार पछी नव भव खेचरनी योनिमा करस्ये ( ५१ ) त्यार  
 पछी इग्पार भय स्थलचरमा करस्ये, एम निथे हे अग्निदत्त ! वा-  
 सठ ( ६२ ) भव भमस्ये तें वासठमा भयमां ते गोठोळ पुरुषोना  
 जीवो मृगपणे उपजाये त्या ते चावीस मृगों वृद्धि पाम्या छत्रां  
 कठीन धर्मना उदयथी बनना अग्निमा बली समयाले मरीने तेसठ  
 ( ६३ ) में भयें मध्य देशमा श्रावकना इग्पामा उपजस्ये त्या बाल्या-

वस्था मुख्याबाद विज्ञान गुणयुक्त यथा छत्रा ते वावीसे जणा दष्ट  
 घीठा कुशील परवचक खल अने पूर्व भावना मिथ्यात्वभावधी  
 जिनमार्गेना प्रत्यनीक देवगुरुनी निंदा करुनारा थास्ये, तथा  
 श्रमण माहणने प्रतिकूलता करता जिनेश्वरना तत्त्वने अन्यथा स्वरूपे  
 प्ररूपशे तथा सेंकडो-हजारो नरनारीनो आगल स्वकपोल कल्पित  
 कुमार्गेनो प्ररूपणा करशे, विशेष प्ररूपणा करशे, सविशेष प्ररूपणा  
 करशे, तथा जिनप्रतिमाने भागता, जिनप्रतिमाने नही मानता  
 जिनप्रतिमानी हीलना करता, प्रतिमाने उत्थापता, प्रतिमानी निंदा  
 करता, अवज्ञा करता, चैन्योने तीर्थोने तथा साधुसाधीने उत्था-  
 पशे, ते अवसर हे अग्निदत्त । ते कामलना पत्रिाजिका अठोनर  
 (७८) वर्ष गृहस्थावास पालीने, छरीस (०६) वर्ष परित्त्राजक  
 धर्म पालीने एकसो चार (१०४) वर्षनु सर्व आयुष्य पालीने सात  
 अहोरान्नि अनुनशन करीने त्याधी काल करी दक्षिण दिशाना  
 वाणव्यंतरनिकायना सुवच्छ नामना इद्रनी-देशोनअर्ध पल्योप-  
 मना आयुष्यगालो सुवच्छ नामनी देवी (इंद्राणी) पर्णे प्रथमधीज  
 उत्पन्न ययेली हशे ते सुवच्छ वाणमनरो अवधि ( विभंग ) ज्ञाने  
 पूर्वभवतो सत्रघ जाणीने ते वागीस वाणीयाओने देखी हर्ष सतोष  
 पामीने, ते वागीस वाणीयाने पूर्वभवना संनवनो, परमपीतिथी  
 साहाय्य (मदद) करनारी घस्पे त्पारे, हे अग्निदत्त ! दुष्ट परिणामी  
 ते वागीस वाणीया सुवच्छ वाणमनरोनी मददधी धनधान्य पुत्र  
 कलत्रधी तथा प्रीति सत्कारना समुदायधी वृद्धि पामशे, त्पारबाद

ते बावीस वाणीया धनधान्याधिके वृद्धि पामनायो पोतानी सुजा-  
 ओ उच्छाल्यो महा अभिमानी यशे, दुदस्ये, गुजारव करशे,  
 अने हनारो पुरुष स्त्रीओनी आगळ आ प्रमाणे प्ररूपणा करशे.  
 ए अमारो जा धर्म साचो ठे, अर्थ अने परमार्थ अमारो धर्मज ठे.  
 बाकी सर्वे अनर्थ ठे. ह मनुष्यो जुरो अमने इहलोसमान प्रत्यक्ष  
 धर्मनु फल मले छे तो आगलनु तो षड्युजभू' ते माटे तमे पण  
 अमारा धर्मनु अनुष्ठान अगीकार करो, एम कही निजमति कलित  
 नवीन मार्गेने उरच्छापणे प्ररूपशे, एम निशे दे अग्निदत्त! ते बावीस  
 'वाणीया, श्रावक धर्मयी भ्रष्ट यइने पददर्शन मांहेयी एके दर्शनने  
 नही मानना अने स्वरूपलित मार्गनी प्रभायना करना अमरपाव  
 काल सुधीनु दुर्भ बोधिपणु उपार्जन करशे, ते अवसरे ह अग्नि-  
 दत्त! भगवतना प्ररूपेण श्रुतनी हीना यशे, ते वखते श्रुतहीना  
 यशे छेते धमण-निर्ग्रयो पूजा मत्कार आदर मन्मान नही पामे,  
 तथा धर्मनु पात्रु अति दुप्कर धशे, उशे ह अग्निदत्त! ते दुष्ट  
 बावीस वाणीया पन्नर वर्ष तरु गृह कृत्य करी-चार गतिमा भ्रमण  
 करानार × × × × × ए येना नामयी प्रसिद्ध यशेउ साधु  
 पर्यायने नवाणु वर्ष पाळीने सोळ महारोगनी पीडायी पराभव  
 पामता आर्तध्यानने यश येला कात्रावसर काल करीने घमा  
 नामनी मयम नरक पृथरीने पडले पायडे दश हजार वर्षने आउखे  
 'नारकीपणे उपजशे ( भव ६८ ) तयार पछी कर्पन वसे तेहज मि-  
 ध्यात्यभावने एदियज्जता थका ( अंगीकार करता ) नाना प्रकार-  
 रनी योनिमा उपजशे, अने यणो समार परिभ्रमण

माटे हे अग्निदत्त ! ते बारीस जीरो श्राररूपणु पामीने पण श्रुत-  
नी हीलना करीने दुर्लभ घोषिपणुं पामशे, हवे अग्निदत्त मुनि गुरु  
महाराजने मणाम करी फरी पुठे, हे आर्य ! कही ते श्रुतहेलना  
क्यारे थशे ! अने श्रुतनो उदय क्यारे थशे ! तेना उत्तरमां  
श्री यशोभद्रसूरिजी श्रुतनो उपयोग आपी कहे छे, हे अग्निदत्त !  
हे महाभाग्य शालिन् ! श्रुतनी हेलना तथा उदयनो समय सांभ-  
लो.-श्रीवीरप्रभुना निर्वाणथी वसेने एकाणु ( २९१ ) वर्षे संप्रति  
नामे राजा सवाकोड जिनप्रतिमा भरायशे तथा सवा लाख जिन  
मंदिर करावशे त्यार पछी सोलमें नवाणु वरसें ते दुष्ट वाणीया  
श्रुतनु अपमान करशे ते समये हे अग्निदत्त !

२९१	} धीर	
१६९९		} संव
१९९०		
४७०	विक० स.	
१,२०	शु-ही	

सघ अने श्रुत राशिना नक्षत्र उपर आडनी  
समो धूमकेतु नामनो दुष्ट ग्रह लागशे,  
तेहनी स्थिति एक राशि उपर व्रणसे तेवीस ( ३३३ ) वर्षनी छे त्यार  
पछी सघनो अने श्रुतनो उदय थशे.

२९१  
६

एम् यशोभद्र सुरना कचनो साभलीने  
वैराग्य पामी प्रदक्षिणा  
वेदन करीने  
अने सुगुह

एव सुपरील्लपुण्णाय-फत्र फठा जाणिऊण अत्तेवि ।

अमयहे जिणवयणे, ददचित्ता होइ पइ दियइ ॥

ए थुत्त हिल्लिनाना उत्पात्तनुं फत्राफल्लने जाणीने यत्त अने  
 इत्तागणे आपनार जिनेश्वरना वचनमा वीजाओ पण हमेशा दद  
 चित्तवाला याआ-आ छेल्ली गायामा आ मूनना प्रतिपादक श्री  
 यशस्वरीजीनु नाम पण जणावी दीधुं,

इति वंकचूळिया मून सारांग मपूर्ण

माटे हे अग्निदत्त ! ते बावीस जीवों श्रावकपणु पामीने पण श्रुत-  
नी हीलना करीने दुर्लभ बोधिपणु पामशे, हवे अग्निदत्त मुनि गुरु  
महाराजने मणाम करी फरी पुछे, हे आर्य ! कही ते श्रुतहेलना  
क्यारे यशे ! अने श्रुतनो उदय क्यारे यशे । तेना उत्तरमा  
श्री यशोभद्रगुरिजी श्रुतनो उपयोग आपी कह छे, हे अग्निदत्त !  
हे महाभाग्य शालिन् ! श्रुतनी हेलना तथा उदयनो समय सांभ-  
लो -श्रीवीरप्रभुना निर्वाणथी वसेने एकाणु ( २९१ ) वर्षे संप्रति  
नामे राजा सवाकोड जिनमतिमा भरारशे तथा सवा लाख जिन  
मंदिर करावशे त्यार पछी सोलसैं नवाणु परसैं ते दुष्ट वाणीया  
श्रुतनु अपमान करशे ते समये ह अग्निदत्त ?

२९१	}	धीर
१६९९		सय
२९९०	}	शु-दो,
४७०		विक० स,
१५२०		शु-दी

सय अने श्रुत राशिना नक्षत्र उपर आडनी  
समो धूमकेतु नामनो दुष्ट ग्रह लागशे,  
तेहनी स्थिति एक राशि उपर त्रणसे तेनीस ( ३३३ ) वर्षनी छे त्यार  
पछी सयनो अने श्रुतनो उदय यशे.

एम यशोभद्र गुरुना वचनो सामलीने  
अग्निदत्त मुनिये, वैराग्य पामी प्रदक्षिणा  
देइ वारवार गुरुमहाराजने वदन करीने

२९१  
१६९९  
३३३  

---

२३२३ वी० स शु. उ.  

---

४७०

१८५३ विक० सं. शु उ पुच्छीने सलेखना करी अने ते मुनिवर  
प्रथम देवलोकें गया ॥

एव सुवर्णमुपाय-फल फला जाणिऊन बध्नेवि ।

जसवे निगदपणे, दग्धिता होइ पइ न्हियई ॥


एकुने जिनाना उत्यावनु फलाफल्ने जाणीन यत्र बने  
 तत आपनार निनेश्वरना वचनमा धीजाओ पण ह्मेडा हइ  
 तग थाभा-भा छेडी गायार्पां आ सुत्रना प्रतिपादक श्री  
 वदश्रीनिनु नाम पण जणावी दी यु.

इति वरुचुलिया सूत्र सारांशं संपूर्णं

नोट—विस्तारशी संपूर्ण हकीकत ज्ञानधानी इच्छायांटाप वरु-  
 चुलिया सूत्र देखु या सामर्थ्ये, तेषु



# एकादश संघानादि स्तुति विंगेरेणु शुद्धिपत्रक



शृष्ट	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१	१९	कुरुष्व	कुरुष्वे
२	४	यस्य	स्तैर्वर्द्धमानः य
२	७	वधो	वंधो
२	१९	रूपादीना	रूप्यादीनां
३	५	यद्वा	यद्वा
३	१३	गृणान्ति	गृणाति
४	८	श्रीनाभिनन्दनाथ	श्रीनाभिनन्दनाथ तेजनाः
४	९	पृथक्	पृथक्
४	१०	अभिनन्दयतात्य	अभिनन्दयतीत्य
४	१०	युगादि	(अभिनन्दन)
४	१८	कृत्य	कृत्य
५	१६	पार्श्व	पार्श्व
६	८	अभयदा	अभयदा
७	१२	द्वितीयवार	द्वितीयवार
८	१	सशा	सशो
८	१६	शत्रु	शत्रू
९	२	स्तुतस्य	स्तुतस्त्वस्य
९	५	चाप्याप्तिः	चाप्याप्तिः
९	१३	सजायटीतीति	सजायटीतीति

धराया  
 दृष्य.  
 हे वर्द्धमान ?  
 मर्य  
 कथितव्या  
 श्रुतीर्थिक  
 त्व किं वशिष्टा  
 श्रीविर  
 शृङ्ग  
 मृत'  
 इति न्या  
 माञ्च  
 निर्गुणैः  
 रोगी  
 युना  
 वृद्धि  
 वैद्य  
 धर्मिष्ठता  
 सर्व  
 घृतेन  
 नं  
 हान्त्या च ।  
 द्रुम्वान्

धरायां  
 दृष्य.  
 हे श्रीवर्द्धमान ?  
 मर्यः  
 कथयितव्या  
 कुतीर्थिक  
 त्व किं विशिष्टा  
 श्रीवीर  
 शृङ्ग  
 मृत'  
 इति ध्रुत्वा  
 प्रोज्ज्व  
 निर्गुणैः  
 रोगी  
 युना  
 वृद्धि  
 वैद्य. (वैत्र)  
 धर्मिष्ठता  
 सर्व  
 घृतेन  
 नं  
 हान्त्या चा  
 द्रुम्वान्

१३	हणायो छतो यइने	हणापेल यइने
१५	पदार्यने	पदार्थने
१६	अयत्	अर्थात्
३	आ भवमां थुं	आभवमा थुं एमने एमज
१५	तेने	तने
१६	तेमा रहेवा देशे	थु तेमा रहेवा देशे ?
	नहि	अर्थात् नहि रहेवा दे, <sup>११</sup>
१९	चरण	चरण
६	रिमै	रिमै.
७	निरेदना	निरेदता
०	रगसस्कृति	रग सस्कृति
१९	स्त्री	स्त्रीयो
२०	शोक	कदिपणशोक
६	देह सुपोतक	देह सुपोतक
१५	कवु	केशर
९	निश्चे	निश्चेतुज
१८-१९	नयी ? तो तु थुं	छे ? अर्थात् योग्य न
	अकामी नयी अ-	तो 'मडनमिय होय
	थवा मडनमियछे?	निश्चे अकामी न होय
१	स । छद्य	स छिय
७	मुक्तिथी	मुक्तिरूप श्रेष्ठ
९	नान्वित ,	नान्वितम

१५	पूर्वे कहेला सत पुरुषो	हे विद्वानो ?
१५-१६	अरण्यमां भटकता	अरण्यमा निरंतर भट-
	एवा	कता एवा पोताना
१६	श्रीअत	श्रीअन्त
३	नन्दम,	नन्दम्
४	वर्ण्यते	वर्ण्ये
४	सदुपकृते	ऽन्येषा म्रुपकृते,
८	सौम्य	साम(२)
१२	(त्त)	(दा)
१३	वद्य (?)	वद्य (नत्वा)
१	साद्धम	साद्धे
९	श्रीमन्तः	श्रीमन्तः
९	इरै	इरैः
१२	स्वदु	स्वदु
१८	स्वप्ने	स्वप्ने
१८	ममा	ममा
८	संमानय	संमानय
१४	विससज	विससर्ज
१७	भोज्य	भोज्ये
१५	इतस्त्वतो	इतस्त्वतो
७	पुनर्युय	पुनर्युयं

३७	५	रात्री	रात्री
३७	१८	मद्येतसि	मद्येतसि
३७	२०	स्वच्छा	स्वच्छी
३८	१३	स्याप	(सस्याप्य)
३९	१०	सा	सो
३९	२१	त्वद्य	सद्यो
४०	१३	स्वय	स्वयम्
४०	१४	स्वादूर्तीर्य	स्वादूर्तीर्य
४१	१४	भूपतिः	भूपतिः
४२	३	दर्शन	दर्शनम्
४२	१७	पालन	पालण
४३	१	पुत्राय	पुत्रार्थे
४३	१३	पित्रौ	पित्रौ
४४	५	प्रनिबुद्धः	प्रतिबुद्धः
४४	९	षष्ट्यां	षष्ट्यां
४५	२	पूर्ण	पूर्ण
४५	१६	गुरुश्री	गुरुश्री
४५	२०	फाल्गुन	फाल्गुन
		कृष्णाष्टभ्यां	कृष्णाष्टभ्या
४६	११	दय	दय
४६	१७	घोलनेकी	घोलनेकी
४७	३	स्मरण	स्मरण

४७	२१	माफोक	माफोक
४८	६	में	में ( भानिराम )
४८	१२	नगरम	नगरमें
४८	१०	श्रावफोए	श्रावकोनें
४८	२०	( द्रव्यानुमें )	०
४८	२२	मेंन	मेंने
४९	६	जीर	जोनें
४९	९	फीया	फहा
४९	११	तार्थकर	तीर्थकर
४९	१८	रिगोलि	रिगोलि
५०	२२	३१	३२
५१	१४	सायंकाळमें	सायंकाळमेंभी
५१	१५	मुचा	सोगया
५१	२२	मेनेकुं	मरेकुं
५२	४	प्रसुरे	प्रसुरेके
५२	१२	बहा	बदां
५२	१९	रोगोमी	रोगोरूपी
५३	४	पदस	पदसे
५३	९	अना	अपना
५३	१३	महाग्यकुं	महाग्यकुं
५३	२०	राजाए	राजाने
५४	३२	परनेदे	परनेदे

५४	२१	ठांढा-	धाढा तटेला-
५५	४	( हाठा )	( जवारीकें थांढा ढोका )
५५	५	गौले	गौके
५५	५	जोडक	जोडकर
५५	६	आगे चलना	आगेतेरे चलना.
५५	८	तहातक	वहांतक
५५	१५	७६	७४
५५	१६	ठांठे	धाढा ढोका
५६	३	वदा	वहा
"	६	मत्रिमधुग्वमें	मत्रिमसुरमें
"			उस बखत फिर
"	७	इधरज	इधरज
"	११	मंदिरस	मदिरसे
"	१४	भगवा	भगवान् मंदिरमें
			नहि आते हे
५७	४	इधर	इसदेशमें
५७	५	यह	वह
"	६	उपायससाधुक	उपायसे साधुकरके
"	९	आश्रय	आश्रय
"	१२	परणेंद्र	परणेंद्रने
"	१२	आचार्य	आचार्य
"	२१	धुरिजीह सग	धुरिजेके सग

	जाये हुये	आये हुवे	
२	पार्श्वनाथे	पार्श्वनाथजीने	५१
५	आचार्ये	आचार्यने	
८	सूरीजीए	सूरिजीने	५५
२१	एल राजाने	एलच राजाने	५५
४	जाबोकुं	जीबोकु	६७
४	करगये	कीया	
५	देवीन	देवीने	
६	तुमभी	तुंभी	
१०	में	में-भाव विजय	६१
१३	करक	करके	
१४	मकारुक	मकारुके	
२०	आये	आपन	
८	परमारें	परमारने	
१४	नामम	नामते	
१८	भीर	तयापि	
६	अतएव	अतएव	
९	११४	१२४	
१२	एव	१२४	
१७	काना	परि	
२२	सबन्	द्वारा	



६२	८	जाकें	जोकें
६२	९	कराक	कराकर कें
"	११	इपर पीठे	पीठे इपर ( गुमराबमें )
"	११	बहास,	बहासैं,
६३	५	पोटराई	पीठकों
"	६	पदस	पदसैं
"	७	जोक	जोकें
"	१५	संपूर्ण	संपूर्ण
"	१८	यात्रायां संबद्ध	यात्रायां संबद्ध

भागठा

साक्ष

सद्वी

६२	८	जाके	जोवे
६२	९	फराक	फराक
"	१३	इपर पीठे	पीठे
"	१३	वहास,	वहांसे
६३	५	पोटका	पीठका
"	६	पदस	पदसे
"	७	जोफ	जोके
"	१५	संपूर्ण	संपूर्ण
"	१८	यात्रायां सैवत -	यात्रायां

